

#### **Amal Ltd**

310 B, Veer Savarkar Marg, Dadar (West), Mumbai 400 028, Maharashtra, India sec@amal.co.in | (+91 22) 62559700 | www.amal.co.in

March 24, 2023

**BSE Listing portal** 

Manager BSE Ltd Listing department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai 400 001

Dear Sir:

Rights Issue of up to 29,37,662 equity shares of face value of  $\stackrel{?}{=}$  10/- each at a price of  $\stackrel{?}{=}$  170/- per equity share (including a premium of  $\stackrel{?}{=}$  160/- per equity share) ("Rights Equity Shares") for an amount aggregating to  $\stackrel{?}{=}$  4,994.03 lakhs on a rights basis to the existing equity shareholders of Amal Ltd (The "Company" or the "Issuer") – Basis of allotment

Reference: Scrip ID - AMAL, Scrip code - 506597

In connection to the subject matter, we hereby submit copy of the newspaper advertisement for your record.

We request you to please take the above documents on records.

Thank you,

Very truly yours,

(Anklt Mankodi)
Company Secretary

CIN: L24100MH1974PLC017594

S

Lalbhai Grou

**FINANCIAL EXPRESS** 

## TWO-DAY GAINING STREAK HALTED

Sensex

58,400

58,250

58,100

57,950

57,800

Intra-day, March 23

58,061.41

# Sensex falls 290 points to close below 58,000-level

**Bank Nifty** 

40,250

40,100

39,950

39,800

Intra-day, March 23

39,836.15

sion to increase rates by 25

basis points was in line with

expectations, concerns were

raised by the US Treasury sec-

retary's statement that blanket

insurance for all deposits was

not being considered. The

domestic market attempted to

recoup its initial losses with

the help of favourable US

Nair, head of research at Geojit

bankex, IT, financial services,

Among indices, realty,

Financial Services.

39,616.90

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, March 23

THE SENSEX DECLINED 290 points in a volatile session to settle below the 58,000-mark on Thursday due to a selloff in banking, financial and IT stocks amid a mixed trend in global equities. Besides, heavy selling in index heavyweight Reliance Industries added to the pressure.

The broader NSE Nifty dipped 75 points or 0.44% to end at 17,076.90, with 30 of its constituents ending in the red. State Bank of India was the

biggest loser in the Sensex pack, shedding 1.69%, followed by Asian Paints, Kotak Mahindra Bank, HCL Technologies, Reliance Industries, Wipro, IndusInd Bank, Infosys,

dipped 0.15%. Power Grid and HDFC twins. "Although the Fed's deci-

In contrast, Nestle, Maruti, Bharti Airtel, Tata Motors, ITC and Hindustan Unilever were among the gainers.

In the broader market, the BSE midcap gauge declined 0.45% and the smallcap index

■ KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No: 114 / 2022-23/SE/Q

JJM Phase II CWSS to Kunnathoor and Karunagappally Taluk- Construction of OHSR sump cum pump house, supply and erection of pump sets, supply and laying clear water transmission main gravity main, pumping etc. in Thazhava panchayath. EMD: Rs. 500000,

Tender fee: Rs.16540+2978(18% GST),

Last Date for submitting Tender: 12-04-2023 02:00:pm, futures as the Fed hinted at its plan to pause rate hikes sooner. However, the recovery was Phone: 04742745293, Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in short-lived due to a sluggish start in the European market, KWA-JB-GL-6-1926-2022-23 led by a 50-bps hike by Swiss National Bank," said Vinod

SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 JVL AGRO INDUSTRIES LIMITED (IN LIQUIDATION) CIN: L15140UP1989PLC011396; Registered Office: S 2/639-18, Hashmi Complex

Near JP Mehta Inter College, Club Road, Varanasi-221002, Uttar Pradesh, India (A company under liquidation process pursuant to an order dated 19th August, 2020 passed by Hon'ble NCLT, Allahabad Bench) Office of the Liquidator: C/o, BDO India LLP, Floor 4, Duckback House

41 Shakespeare Sarani, Kolkata-700017, India JVL Agro Industries Ltd. ("JVL" or "Corporate Debtor") is currently undergoing liquidation process in accordance with the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 ("IBC"

pursuant to Order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, dated Augus 19, 2020 and Mr. Supriyo Kumar Chaudhuri has been appointed as its liquidator Notice of sale is hereby given under IBC and Regulations made thereunder pursuant to consultation and advice of the stakeholders' consultation committee, as constituted under Reg. 31A of the IBB (Liquidation Process) Regulations, 2016, at its meeting held on 10th March, 2023 inviting EOI, Bio Application Form and Annexures together with relevant documents from prospective bidder interested in participating in E-Auction for purchase of the following standalone Block/(s) of assets of the corporate debtor on "as on where on basis", "as is where is basis", "as is what is basis", "whateve

Process Information Document which may be viewed at www.jvlagro.com/. The E-Auction will be conducted through the service provider, M/s E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) via website https://ncltauction.auctiontiger.net/ as per the details stated hereunder: SALE OF STAND-ALONE BLOCK(S) OF ASSETS REPRESENTING A FEW VEHICLES UNDER REGULATION 32(a) OF THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (LIQUIDATION PROCESS) REGULATIONS, 2016 BY E-AUCTION ON

there is basis" and "no recourse basis", according to the terms and conditions set out in the E-Auctio

Block No.	Block/(s) Title	Reserve Price (Rs in Thousands)	EMD (Rs in Thoudsands) [at 10% of Reserve Price]	Incremental bidding value during E-Auction (Rs in Thousands)
B3	Vehicle - Indica DLS, 2007 Model	42.30	4.20	2.00
B4	Vehicle - Indica DLS, 2008 Model	42.30	4.20	2.00
B5	Vehicle - Indigo CS LS, 2011 Model	56.70	5.60	2.00
B6	Vehicle - Indigo ECS	118.80	11.80	2.00
B8	Vehicle - Nova Scooter	4.50	0.40	1.00
B9	Vehicle - Splendor Plus, 2007 Model	7.20	0.70	1.00

SALE OF STAND-ALONE BLOCK(S) OF ASSETS OF JVL AGRO INDUSTRIES LIMITED (IN LIQUIDATION) UNDER REGULATION 32(a) OF THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (LIQUIDATION PROCESS) REGULATIONS, 2016 BY E-AUCTION ON 27TH APRIL, 2023 BETWEEN 2:00 PM AND 5:00 PM

No.	Block/(s) Title	Price (Rs in crores)	(Rs in Crore) [at 10% of Reserve Price]	bidding value during E-Auction (Rs in crores)
A3	Refined edible oil and vanaspati mill at Pahleja, Dist. Rohtas, near Dehri-on-Sone, Bihar	36.549	3.654	0.25
A4	Rice mill at Baank Farm, Akorhigola, Dist. Rohtas, near Dehri-on-Sone, Bihar	15.759	1.575	0.25
A6	Freehold land in District Amreli (Gujarat) adjacent to Pipavav port	1.152	0.115	0.02
A9	Freehold Flat No. 513 in a commercial building at Babu Khan Estate, Bashir Bagh, Hyderabad	CONTRACTOR   TO CA	0.087	0.02
A 10	Freehold Flat No. 515 in a commercial building at Babu Khan Estate, Bashir Bagh, Hyderabad		0.071	0.02

& Building, Plant & Machineries, Inventories, some felled trees at Rice Mill (for Block A 4). Office Equipment, Furniture & Fixtures and Vehicles [details whereof would be available on the Virtual Data Room (VDR)] which would be transferred.

Relevant Due Dates for E-Auction of the Blocks of Assets as uploaded on

https://www.jvlagro.com/:				
Type of Event	Timeline			
Last Date of submission of Expression of Interest (EOI) alongwith Application, Confidentiality Undertaking, Undertaking under Sec. 29A of IBC and relevant eligibility documents				
Last Date for declaration of Qualified Prospective Bidder	On or before Friday, 14th April, 2023			
Data Room access, and site/Plant inspection by Qualified Prospective Bidders up to	Saturday, 22nd April, 2023			
Last Date for furnishing Earnest Money Deposit (EMD)	On or before Tuesday, 25th April, 2023			
Date of E-Auction	Thursday, 27th April, 2023 (2:00PM - 5:00PM)			

The major terms and conditions of the E-Auction are as follows:

a) The sale will be subject to orders of the Hon'ble NCLT, Hon'ble NCLAT, Hon'ble High Courts Hon'ble Supreme Court of India and the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 along with Regulations framed thereunder including guidelines released by the 155 Interested parties should regularly visit the website of JVL Agro Industries Ltd., i.e. https://www.jvlagro.com or email at liquidatorjvl@lqjvl.com for access to E-Auction Process Information Document and other relevant information including updates required for participation in the E-Auction. All terms and conditions of the E-Auction Process Information Document including all addendums, corrigenda and clarifications provided thereto shall be deemed to have been incorporated in this Sale Notice. For any further information, please contact the Liquidator at +91 93307 73661. ) It is clarified that this is not an offer document.

E-Auction will be conducted on "As on where on basis", "As is where is basis", "As is what i basis", "Whatever there is basis" and "No recourse basis". Such sale would be without any kind

of warranties and indemnities from the Liquidator. ) Details of E-Auction Platform: https://ncltauction.auctiontiger.net/

Interested parties are requested to submit their EOIs, application, affidavit, undertaking, etc. in the prescribed format to the Liquidator electronically followed by hard copies by Speed Post The E-Auction Process Information Document in this regard providing detailed terms and conditions applicable to the E-Auction process along with Bid application and other forms can be downloaded from the website of the company at www.jvlagro.com. Access will be provided to each individual qualified bidder after receipt of EOI, Application

Form and all prescribed documents including undertaking under Section 29A of IBC, 2016, i accordance with this Sale Notice and E-Auction Process Information Document to the satisfaction of the Liquidator. The decision of the Liquidator in this regard shall be final and binding on all parties concerned.

) The E-auction will be conducted on the scheduled date between 2:00 PM and 5:00 PM with unlimited extension of five minutes each.

) The liquidator reserves the right to modify the E-Auction process terms and shall have the absolute right to accept or reject any or all bids or abandon/adjourn / postpone /extend/cance the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the E -Auction process or disqualify any prospective applicant at any stage without assigning any reason thereof and without any notice or liability.

All applicable taxes and other levies will be borne by the successful bidder. Interested parties/prospective bidders are required to furnish EMD in terms of the E-Auctio

.in

Place : Kolkata

financiale

Date : 24th March, 2023

Process Information Document after completion of Due Diligence of the relevant Block(s) of Assets to their satisfaction. All prospective bidders who have furnished EMD shall be mandatorily required to participate in the E-Auction. Non-participation in the E-Auction of any prospective bidder after furnishing EMD would result in forfeiture of its EMD and no claim for refund shall be entertained by the Liquidator. EMD of unsuccessful bidders only would be refundable without any interest after completion of E-Auction subject to all other terms and conditions specified in the E-Auction Process Information Document.

> Supriyo Kumar Chaudhuri Liquidator, JVL Agro Industries Limited IBBI/IPA-001/IP-P00644/2017-18/11098 liquidatorjvl@lqjvl.com BDO Restructuring Advisory LLP, C/O BDO India LLP, Duckback House, 4th Floor, 41, Shakespeare Sarani,

tech and consumer discretionary were the biggest laggards. FMCG, healthcare, telecommunication, utilities and power were among the In Asia, Seoul, Shanghai and

Hong Kong markets ended in the green, while Japan settled lower."Most Asian stock markets ended in the positive, while European markets were trading lower as they weighed the prospect of a less-hawkish Fed against increased economic headwinds in the coming months. Investors felt that further increases, along with rates remaining higher for longer, are likely to apply increased pressure on the global economy this year," said Deepak Jasani, head of retail research, HDFC Securities.

Foreign portfolio investors turned buyers on Wednesday as they bought equities worth ₹61.72 crore, according to exchange data.

"Domestic equities swung between gains and losses after US Fed continued with its rate hike trajectory. Statement by treasury secretary to not provide any blanket insurance to all the banks distraught the sentiments," Siddhartha Khemka, head — retail research, Motilal Oswal Financial Services, said.

M/s. Mudra Finance Limited ("the Company") having its Registered Office at G-12/A, First Floor, Hauz Khas, New Delhi-110016 and Corporate Office at Vipul TechSquare, Golf Course Road Sector-43, Gurugram-122009, Haryana, had made provisional allotment of Residential/Commercial Flats in the project namely Vipul Gardens, Dharuhera, Haryana, agains the Earnest Money cum booking amount, and upon signing of Company's application forms containing terms and conditions of the allotment. As per the records maintained by the Company, the following Allottees have not paid their

espective dues/installments/interest etc. as per the terms of the provisional allotment(s), despite several reminders / written communications and as a squel thereof, the provisional allotment of

S. No.		Tower	Unit	Address	Area (sq. ft.)
1	MR, RAJAT OHRI	6	902	G-72, LAJPAT NAGAR-I, NEW DELHI- 110024	1240
2	MRS. MADALSA KUMAR	5	505	NotAvailable	747
3	MR. MANPREET SINGH	5	605	J - 1301, PALAM VIHAR, GURGAON- 122015	747
4	MS. NILUFAR KHANAM	6	1201	FLAT NO. 1202, TOWER-14, ORCHID PETALS, BEHIND OMAXE MALL, SOHNA ROAD, GURGAON	1261
5	MR. DHIRAJ ASTHANA	9	601	FLAT NO. 104, TOWER 25, ORCHID PETALS SOHNA ROAD, GURGAON- 122018	1844
6	MRS. SHALINI SHARMA	10	1201	B-46, FLAT NO-S-5, SHALIMAR GARDEN, EXTENTION-2, SAHIBABAD, GHAZIABAD, U.P201005	1535

Ranjan Gupta

Sd/-



Date: March 22, 2023

Place: Gurugram

## BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LTD.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISES) CIN No. U27310WB1920GOI003601 Corporate and Registered Office "KANKARIA CENTRE", 4th & 5th FLOOR, 2/1, RUSSEL STREET, KOLKATA - 700071

### NOTICE

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time ("Rules").

The Act and the Rules, amongst other matters, contain provisions

for transfer of unpaid or unclaimed dividends to IEPF and transfer of shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more, to the Demat Account of the IEPF Authority. The Company has sent individual communication to the concerned

shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules, for taking The Company has also uploaded complete details of the concerned

shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to IEPF Demat Account on its website at https://www.bridgeroof.co.in Shareholder(s)are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Demat Account. Shareholders may further note that the details of the concerned shareholders as uploaded by

the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company corporate action for the purpose of transfer of shares to IEPF Demat Shareholders can claim their unclaimed dividend by writing to the Company/Registrar and Transfer Agent of the Company viz. C B Management Services Private Ltd. enclosing original cancelled

in case the shares are held in physical form or self attested copy of Client Master List with the updated bank account details, if the shares are held in demat form Please note that the last day for claiming the dividends is 23rd June,

cheque stating the first named shareholder as the account holder

In case the dividends are not claimed by the said date, the Company would initiate necessary action for transfer of unclaimed dividends and shares held by the concerned shareholders in favour of the IEPF

Authority without any further notice, in accordance with the Rules, · For shares held in physical form - New share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) will be issued and transferred in favour of the IEPF Authority on completion of necessary formalities.

The original share certificate(s) which stand registered in the name of the shareholder(s) will be deemed cancelled and non-negotiable. . For shares held in demat form - The Company shall inform the Depositories to execute the corporate action and debit the shares

shares in favour of the IEPF Authority. The concerned shareholder(s) are further informed that all future benefits arising on such shares would also be transferred to the IEPF Authority.

lying in the demat account of the shareholder(s) and transfer such

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF Authority pursuant to the said Rules.

The Shareholder(s) may note that in the event of transfer of their unclaimed dividends and shares to the IEPF (including all benefits accruing on such shares, if any), the concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from the IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed e-Form IEPF-5, available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) to the Company at its Registered Office along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5.

In case the shareholders have any queries or require any assistance on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agents at C B Management Private Ltd. Unit: Bridge And Roof, P-22, Bandel Road, Kolkata - 700 019, Phone ; 033-4011 6700, Fax: 033-4011 6739, Email:rta@cbmsl.com, website: https://www.cbmsl.com.

For Bridge and Roof Company (India) Limited

(Rakhee Kar) Company Secretary

## South Indian Bank scripts a turnaround

AJAY RAMANATHAN Mumbai, March 23

THE STOCK OF Thrissurbased South Indian Bank outperformed its peers in the past year. While it is a small-cap stock with market capitalisation of just ₹3,500-odd crore, the sharp rise of 118% to ₹17.2 per share (on Thursday) has attracted brokerages towards it.

In a recent report, ICICI Securities has increased its price target on the stock to ₹25 from ₹14 due to its improved performance. Analysts attribute the stock performance to a shift in the bank's strategy under managing director and chief executive officer Murali Ramakrishnan. "He (Ramakrishnan) has

improved the working of



South Indian Bank, which is very positive for the bank. It has surprised everyone on the seat. I think the bank is still very attractive as a long-term investment bet," Prabhakar AK, head of research, IDBI Capital Markets, said.

When Ramakrishnan took over as the top boss in Septem-

ber 2020, drawing from his stint at ICICI Bank, he formulated the '6C' strategy with an aim to achieve 'profitable growth through quality credit'. The strategy sought to focus on capital, CASA deposit book, cost-to-income, competency building, customer experience and compliance. "We were also in the midst

expecting a lot more slippages to happen during the COVID period. With the capital level being low, we were in a challenging situation, wherein one side, your delinquencies will rise and you need to take more provisioning. On the other side, we had a book with huge NPAs impacting the profits," says Ramakrishnan.

of COVID-19, and so we were

A few months after Ramakrishnan took over, he

announced the Vision 2024 with an aim to hit a loan book of ₹1 trillion, the CASA mix of over 35% and the provision coverage ratio of over 65% by 2023-24 (April-March). By his own admission, the transfor mation warranted a "surgery of every department in the bank".

As on December 31, 2022 the bank's total loan book stood at ₹70,117 crore while its CASA ratio was at 33.81%. Including write-offs, the provision coverage ratio stood at 74.51%. The gross non-performing asset ratio improved to 5.48% as on December 31, from 6.97% as on March 31, 2021.

In the next one year, the bank intends to foray into commercial vehicle, construction equipment financing, and automobile loan segments.

## ICRA revises outlook on infra NBFCs to 'positive' from 'stable'

**AJAY RAMANATHAN** Mumbai, March 23

ICRA HAS REVISED its outlook on infrastructure sectororiented non-banking financial companies (NBFCs) to 'positive' from 'stable'.

These entities include lenders like Power Finance Corporation, REC and Indian Railway Finance Corporation.

The credit rating agency expects the loan book of these 2023-24 (April-March), aided by the government's push for infrastructure construction. The government has set an FY2024 as well, given the

Advt. No. J.S.V. 569 (2022-23)

get of over ₹111 trillion under the National Infrastructure Pipeline and the pace of investment is expected to double the previous level, a press release from ICRA said.

infrastructure investment tar-

"NBFC-IFCs are expected to benefit from the credit demand generated by the central government's ambitious targets under the National Infrastructure Pipeline. ICRA has revised the outlook for the entities to rise by 10-12% in segment, reflecting its expec- stage-3 asset ratio to moderate tation that the enhanced performance witnessed in FY2023 will continue in

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T)M6 C/o ACE(M)6

OHT ASHOK VIHAR, NEW DELHI-110052

improvement in the solvency profile, calibrated loan book growth in near term and better asset quality and earnings profile," Manushree Saggar, vice president and sector head - financial sector ratings, ICRA said.

The gross stage-3 asset ratio of these lenders fell to 3.4% as on March 31, 2022, from 6.8% as on March 31,

ICRA expects the gross further by 10-30 basis points in 2023-24 (April-March), supported by limited slippages and growth in the loan books.

**Executive Engineer (T) M-6** 

अमृत महोत्सः

## Fitch Ratings affirms 'BBB-' rating on **Adani Ports**

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, March 23

funding.

**FITCH RATINGS ON** Thursday affirmed its 'BBB-' rating on Adani Ports and Special Economic Zone with a stable outlook, saying the Hindenburg report has a limited near-term impact on APSEZ's cost of

"Fitch Ratings has affirmed India-based port operator Adani Ports and Special Economic Zone Limited's (APSEZ) Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) at 'BBB-'. The Outlook is Stable,' it said. "The affirmation reflects its

view that the Hindenburg report alleging governance issues at the Adani group has a limited near-term impact on APSEZ's cost of funding and access at the current rating level," Fitch said. "APSEZ's internal cash surplus is sufficient to cover its near-term operations and debt obligations as well as its budgeted capex."

receipt of tender in E-procurement solution Tender ID through e-procurement

Press NIT No. 76 (2022-23) Name of Work Estimated | Date of release of tender Last date /Time of 1. Desilting of Peripherial 900mm dia. sewer line 61,24,196/-22.03.2023 05.04.2023 from Prem Nagar fatak to 63 Rama Road in Ward 2023 DJB 238690 6 upto 3.00 PM Karampura, Under EE(M)25, Moti Nagar. Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in Sd/-ISSUED BY P.R.O. (WATER) (Trilok Chand)

"STOP CORONA: wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene" This is only an advertisement for information purpose and does not constitute an offer document announcement or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. Not for publication, distribution, or release, directly or indirectly into the United States of America or otherwise Outside India.



Amal Limited was incorporated as a public limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 as "Piramal Rasayan Limited" pursuant to a certificate of incorporation dated July 4, 1974 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra. For further details relating to change in the registered office address of our Company, please see "General Information" on page 34 of the Letter of Offer.

Registered Office: 309, Veer Savarkar Marg, Opposite India United Mills, Near Prabhadevi Telephone Exchange, Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India Tel: (+91 22) 62559700 Email Id: sec@amal.co.in; Website: www.amal.co.in Contact Person: Mr. Ankit Mankodi, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L24100MH1974PLC017594

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SUNIL LALBHAI, MRS. VIMALBEN LALBHAI, MS. SWATI LALBHAI AND MS. TARAL LALBHAI ISSUE OF 29,37.662 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹10 EACH AT A PRICE OF ₹170/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹160/- PER EQUITY SHARE) ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING TO ₹4,994.03 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF AMAL LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") IN

THE RATIO OF 24 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 77 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 21, 2023 (THE "ISSUE"). **BASIS OF ALLOTMENT** The Board of Directors of Amal Limited wishes to thank all its members and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Monday, March 6, 2023, and closed on Tuesday, March 14, 2023. The last date for on market renunciation of Rights Entitlement was Wednesday, March 08, 2023. Out of a total of 1913 Applications received for 34,44,547 Equity

Shares, 102 Applications received for 54,554 Equity Shares were rejected due to duplicate bid entries. The total number of valid applications received were 1811 Applications for 33,89,993 Equity Shares aggregating to ₹57,62,98,810/- which was 115.40 % of the issue size. In accordance with the Basis of Allotment finalized on March 20, 2023, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE Limited ('BSE'), the Designated Stock Exchange for the Issue,

the Company has on March 21, 2023 allotted 29,37,662 Equity Shares to the successful applicants. All valid applications have been considered for Allotment.

1. Basis of Allotment: Category No. of **Number of Rights Equity Shares** Number of Rights Equity Shares **Total Rights Equity Applications** Allotted - against Rights Entitlement Allotted - Against valid additional shares **Shares Allotted** 22,35,944 Eligible Equity Shareholders 29,26,430 11,232 11.232 Renouncees 33 22,47,176 6.90.486 29.37.662

2. The break-up of Applications after Technical rejections/Partial Rejections is given below: Category Gross\* Less: Rejections/Partial Amount Applications Shares Shares Amount (₹) **Applications** Shares Amount (₹) Amount (₹) **Applications** Eligible Equity Shareholders 33,60,05 57,12,09,690 25,254 42,93,180 33,34,803 56,69,16,510 Renouncees 29,936 50,89,120 29,936 50,89,120 33,64,739 57,20,05,630 1,811 33,89,993 57,62,98,810 25,254 42,93,180 1,615 196 \*The Gross Applications excludes Duplicate Bid Entries

**Fractional Entitlements** 

The Equity Shares are being offered on a rights basis to existing Eligible Equity Shareholders in the ratio of Twenty Four Equity Shares for every Seventy Seven Fully Paid-up Equity Shares held as on the Record Date on February 21, 2023. As per SEBI Rights Issue Circulars, the fractional entitlements are to be ignored. Intimation for allotment/ refund/ rejections cases: The dispatch of Allotment Advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors by e-mail only have been completed on

March 23, 2023. The instruction to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Applicants were given on March 20, 2023. The Company has filed the listing application seeking permission for listing of 29,37,662 equity shares issued on Rights Basis with the BSE Limited ('BSE') on March 21, 2023. The listing application filed by the

Company has been approved by BSE vide their letter no.LOD/RIGHT/VK/FIP/3241/2022-23 dated March 22, 2023. The Company will make application seeking permission for trading of 29,37,662 equity shares issued on Rights Basis with the BSE. Credit of equity shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on March 22 2023. For further details, see "Terms of the Issue" - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on page 157 of the Letter of Offer. The trading is expected to be commence on BSE on or about March 24, 2023, In accordance with SEBI circular

dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on March 22, 2023. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THIS RIGHTS ISSUE SHALL HAVE THE SAME ISIN (I.E. INE841D01013) AS THE EXISTING LISTED EQUITY SHARES. INVESTORS ARE FURTHER ADVISED TO NOTE THAT THOUGH THESE EQUITY SHARES MAY GET CREDITED TO THEIR RESPECTIVE DEPOSITORY ACCOUNTS, THEY SHOULD TRADE

WEBSITE OF THE STOCK EXCHANGE, INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the Issue is ₹5,000 Lakhs. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Other Regulatory and Statutory Disclosures – Disclaimer Clause of SEBI" on page 125 of the Letter of Offer.

IN SUCH EQUITY SHARES ONLY AFTER ASCERTAINING THAT TRADING APPROVAL HAS BEEN ISSUED AND NOTIFIED BY BSE. THIS INFORMATION WOULD ALSO BE POSTED ON THE

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of the BSE" on page 125 of the Letter of Offer.

All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the Letter of Offer dated February 18, 2023. Any correspondence in respect of allotment of Rights Equity Shares pertaining to the Issue may be addressed to the Registrar to the Issue at the address mentioned below.

## KEYNOTE

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028 Tel: +91 22 6826 6000 E-mail: mbd@keynoteindia.net

## **LINK**Intime

REGISTRAR TO THE ISSUE

Link Intime India Private Limited C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 Tel: +91 22 4918 6200 E-mail: amal.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

**Amal Limited** 309, Veer Savarkar Marg, Opposite India United Mills, Near Prabhadevi Telephone Exchange, Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India **Tel**: (+91 22) 62559700 Email Id: sec@amal.co.in Website: www.amal.co.in Contact Person: Ankit Mankodi

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked., ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSBs, where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, For Amal Limited

> Ankit Mankodi Company Secretary & Compliance Officer

Date: 24.03.2023 Kolkata-700017, India

Place: Kolkata

**Keynote Financial Services Limited** 

Website: www.keynoteindia.net Contact Person: Sunu Thomas SEBI Registration No.: INM 000003606

Place: Mumbai **Date:** March 23, 2023

was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA, see "Terms of the Issue" on page 132 of the Letter of Offer.

जाहीर नोटीस

सर्व लोकांस कळविण्यात येत की. गाव **मौजे**. **नारंगी,** ता. वसई, जि. पालघर येथील सर्व्हे क्र ४०(१८४), हिस्सा नं. २२, या मिळकतीमध्ये फ्लॅट नं. २०३, दुसरा मजला, क्षेत्रफळ ६५० चौ फट गोविंद मेस्त्री अपार्टमेंट साईनाथ नगर पेटोल पंपच्या समोर, आनंदी नगर, विरार - पुर्व ता. वसई, जि. पालघर - ४०१ ३०५, या ठिकाणी स्थित असलेले फ्लॅट **मारुती धोंडु गुजर** यांच्या मालकीची आहे परंतु ते काही कारणास्तव ते दि २७.१०.२०१८ रोजी स्वर्गवासी झालेले आहे म्हणुन त्यांचे कायदेशिर वारसदार मी व माझी तीन मुर्ल आहेत व इतर कोणीही वारसदार नाही व मी त्यांची पत्नी **तप्ती मारुती गजर** सदर फ्लॅट **श्री लवकुश मकरंदप्रसाद पाण्डेय** यांना विकत देत आहे. तरी सदर फ्लॅटबाबत किंवा त्यातील कोणत्याही भागात कोणी इसम किंवा व्यक्तींच्या गहाण, दान, बक्षीस, दावा, वारस, व अन्य हक्क हितसंबंध असेल तर तो त्यांनी ही नोटीस प्रसिद्ध होताच ०७ दिवसांच्या आत निम्न स्वाक्षीकारांनी त्यांच्या शॉप नं ०१. साई बाजार तुळींज पोलिस स्टेशन जवळ, तुळींज रोड, नालासोपारा-पुर्व, ता.वसई, जि.पालघर - ४०१ २०९ हया पत्त्यावर योग्य त्या कागदोपत्री पुराव्यासह कळवावा. अन्यथा तसा हक्क, हितसंबंध नाही असे समजुन भाडेपट्टा/विक्रीचा व्यवहार व विकसित करण्याची सर्व प्रकारची प्रक्रिया पुर्ण केली जाईल

ॲड. बी. आर. शर्मा.

#### जाहीर सूचना

श्रीमती एलिझा मेन्डोन्का या दिनाको महादेव को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, पत्ता मार्वे रोड, मिठ चौकी, मालाड (प.), मुंबई-४०००६४ या सोसायटीच्या सदस्या होत्या आणि सोसायटीच्या ग्रीनफिल्डस् इमारतीमधील फ्लॅट क्र.ए-२४ मधील ५०% अविभाजीत शेअर्सच्या धारक होत्या, यांचे कोणतेही वारसदार न नेमत ०७.०४.२०१४ रोजी निधन झाले. श्री. <mark>रोक्यु</mark> **मेन्डोन्का.** मयताचे कायदेशीर वारसदार व मुलग यांनी त्यांच्या नावे मयताचे शेअर्स हस्तांत करण्यासाठी अर्ज केला आहे.

सोसायटी याव्दारे, सोसायटीच्या भांडवल मिळकतीमधील, मयत सभासदाच्या सदर शेअर्स व हितसंबंधाचे हस्तांतरण होण्यास वारस किंवा अन्य दावेदारी/आक्षेप घेणारे यांच्याकडून काही दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते ह्या सूचनेच्या प्रसिध्दीपासून **१५ दिवसांत** सोसायटीच्या भांडवल*)* मिळकतीमधील मयत सभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तांतरणासाठी त्याच्या/तिच्या, यांच्या दावा/ आक्षेपांच्या पुष्ठ्यर्थ अशी कागदपत्रे आणि अन्य पुरावाच्या प्रतींसह मागविण्यात येत आहेत. वर दिलेल्या मुदतीत जर काही दावे/आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत, तर मयत सभासदाच्या सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील शेअर्स व हितसंबंधाशी सोसायटी उपविधीतील तरतुदींमधील देलेल्या मार्गाने व्यवहार करण्यास सोसायटी मोकर्ळ असेल. जर सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधीत मयत सभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्य हस्तातरणास काही दावे/आक्षेप सोसायटीने प्राप्त केले तर, सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुर्दीनुसा त्यावर सोसायटी कार्यवाही करेल. सोसायटींच्य नोंदणीकृत उपविधींची प्रत दावेदार/आक्षेपकाव्दा निरीक्षणाकरिता दिनाको महादेव को-ऑपरेटिव हौसिंग सोसायटी लिमिटेडच्या कार्यालयात सद सूचना प्रसिध्दीच्या तारखेपासून कालावर्ध गमाप्तीच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवर्श उपलब्ध आहेत. जर सोसायटीकडे दावा किंवा आक्षेप प्राप्त न झाल्यास सदर फ्लॅटमधील मयताचे शेअर्स ायताचा मलगा व कायदेशीर वारसदार **श्री. रोक्य** मेन्डोन्का यांच्या नावे सोसायटीकडून हस्तांतर केले जातील.

च्या वतीने व करित दिनाको महादेव को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड दिनांक: २४.०३.२०२३ ठिकाणः मुंबई अध्यक्ष/सचिव

उप निबंधक, सहकारी संस्था, (परसेवा) महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसस्था फेडरेशन लि. मुंबई याचे कार्यालय पत्ताः ६/६०३, दुर्गा कृपा को-ऑप हौसिग

#### सोसायटी, हनुमान चौक, मुलूंड पूर्व, मुंबई-४०००८१ जाहिर नोटीस

स्वामी समर्थ को-ऑ. क्रे. सो. लि. पत्ता : ४०१ बी विंग, अशोका कॉम्प्लेक्स, रानडे रोड दादर (प), मुंबई-२८

#### अ.क्र. १ ते २८

अ. क्र.	जाब देणाऱ्याचे नाव	दावा दाखल दिनांक	जाब देणार क्रमांक	दावा क्रमांक	वसुलपात्र रक्कम
9	श्री राजकुमार छोटेलाल अग्रहरी	०४/०२/२३	२	८१०	993340.00
२	श्री अनिल मुलचद गुप्ता	०४/०२/२३	3	८१०	993340.00
3	श्री प्रकाश मनुभाई जेठा	०४/०२/२३	२	<b>८</b> ٩٩	८३७५ <u>१.</u> ००
8	श्री प्रमोद अकुश राणे	०४/०२/२३	٩	८१२	२०२१९६.००
4	श्रीमती सिमा अरूण सावंत	०४/०२/२३	२	८१२	२०२१९६.००
Ę	श्री अरूण बाळकृष्ण सावत	०४/०२/२३	3	८१२	२०२१९६.००
l 0	श्री राजेश हरीनाथ राजभर	०४/०२/२३	٩	<b>८</b> ٩३	६०४५८.००
ι	श्री बाळासाहेब दत्तात्रय तांबे	०४/०२/२३	२	<b>८</b> ٩३	६०४५८.००
9	श्री रंजय हरिनाथ राजभर	०४/०२/२३	3	<b>८</b> ٩३	६०४५८.००
90	श्री राजनारायण केवल गुप्ता	०४/०२/२३	٩	८१४	940369.00
99	श्री कल्पनाथ श्यामसुदर गुप्ता	०४/०२/२३	3	८१४	940369.00
9 २	श्री रानजय हरीनाथ राजभर	०४/०२/२३	٩	८१५	906388.00
93	श्री बाळासाहेब दत्तात्रय तांबे	०४/०२/२३	२	८१५	906388.00
98	श्री राजेश हरिनाथ राजभर	०४/०२/२३	3	८१५	906388.00
94	श्री कल्पेश शंकर तावडे	०४/०२/२३	٩	<b>ሪ</b> 9 ६	२३६५३६.००
9 &	श्रीमती गार्गी कल्पेश तावडे	०४/०२/२३	3	८9६	२३६५३६.००
90	श्रीमती गार्गी कल्पेश तावडे	०४/०२/२३	٩	८१७	२३६५३६.००
96	श्री कल्पेश शंकर तावडे	०४/०२/२३	3	८१७	२३६५३६.००
98	श्री संजय हरीनाथ राजभर	०४/०२/२३	٩	<b>८</b> ٩८	998800.00
२०	श्री बाळासाहेब दत्तात्रय तांबे	०४/०२/२३	२	८१८	998800.00
२१	श्री रजय हरिनाथ राजभर	०४/०२/२३	3	<b>८</b> ٩८	998800.00
२२	श्री प्रविण तानाजी शिंदे	०४/०२/२३	٩	८१९	२३२१०८.००
२३	श्री मनोज गोरख अडसुळ	०४/०२/२३	२	८१९	२३२१०८.००
२४	श्रामती हेमलता मनोज अडसुळ	०४/०२/२३	3	८१९	२३२१०८.००
२५	श्री धिरज गोविंद बारीया	०४/०२/२३	२	८२०	३२९९७९५.००
२६	श्रीमती दिपा धिरज बारीया	०४/०२/२३	3	८२०	३२९९७९५.००
રહ	श्री संजय राघू गावडे	०४/०२/२३	२	८२१	3038836.00
२८	श्री पांडुरग बबन बोऱ्हाडे	०४/०२/२३	3	८२१	३०३१४३८.००

सदर दाव्याचे कामी अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या अर्जातील प्रतिवादींना रजिस्टर पोस्टाने समन्स पाठविण्यात आलेले आहे. परंतू प्रतिवादी यांना समन्स रूजू न झाल्याने/त्यांचा नवीन पत्ता उपलब्ध नसल्याने जाहीर समन्स देत आहोत.

उपनिर्दिष्ठ अर्जासबधी आपले म्हणणे माडण्यासाठी स्वतः जातीने **दिनाक ०६.०४.२०२३** रोजी दुपारी ११.३० वाजता दाव्यासंबंधी कागदपत्रांसह आपण या कार्यालयात हजर रहावे

या नोटीशीव्दारे उपरोक्त प्रतिवादी यांना असेही कळविण्यात येते की, वरील तारखेर आपण वेळेवर हजर न राहिल्यास आपल्या गैरहजेरीत अर्जाची सुनावणी घेण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. त्या प्रमाणे वरील तारखेस तत्वपूर्वी आपला संपूर्ण पत्ता कळविण्यात कसूर केल्यास आपला बचाव रद्द समजण्यात येईल.

म्हणून आज **दिनाक १७ ०३ २०२३** रोजी माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिली आहे.



उप निबंधक. सहकारी संस्था, (परसेवा) महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसस्था फेडरेशन लि. मुंबई

#### NOTICE

Shrimati SHARIFA MOHAMMED KASIM ANSARI a Member of the CHISHTIYA Co-operative Housing Society Ltd. having, address at FARZAND APPT. 7A Badlu Rangari St. Byculla, Mumbai-4008 and holding flat No B-306.in the building of the society, died on 22/02/2023 without making any nomination. The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other claimants/ objector or objectors to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society within a period of days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/ objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society. If no claims/ objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society in such manner as is provided under the bye-laws of the society. The claims/ objections, if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the society. A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimants/ objectors, in the office of the society/ with the secretary of the society between 8,30pm to 10,30pm, from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.

Place: Mumbai Date: 20/03/2023

For and on behalf of The Chishtiya Co-op. Housing Society Ltd Hon, Secretary

#### जाहीर सचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **गोपाल टेरेस को–ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड**, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० च्या तरतुदीअंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था, नोंदणी क्र.बीओएम/डब्ल्युआर/एचएसजी/टीसी/१४८९/१९८४-८५ दिनांक २५.०२.१९८५, यांचे कार्योलय**- कस्तुर पार्क, शिम्पोली रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००९२** (यापुढे सदर सोसायटी म्हणून संदर्भ) हे खाली दिलेल्या अनुसुचीत नमुद मालमत्तेसंदर्भात एकमेव व संपुर्ण मालक असून अधिकार, हक्क व हितधारक आहेत (यापुढे सदर मालमत्ता म्हणून संदर्भ). सदर सोसायटी सदर मालमत्तेची संपूर्ण व एकमेव मालक झाले. यापुढे सुचित करण्यात येत आहे की. . सोसायटीच्या नोंदीनुसार खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे विद्यमान सदस्य आहेत:

अ.	फ्लॅट/	सदस्याचे नाव	भागप्रमाणपत्र	अनुक्रमांक
क्र.	दुकान		क्र.	-
1.	A/11	शालन आर. तम्पारसे, हेमंत आर. तम्पारसे	001	001-005
2.	A/12	विनायक ए. लिमये	002	006-010
3.	B/13	लिला विजयन	003	011-015
4.	B/14	अर्चना एस. सुर्वे, रश्मी एस. सुर्वे, चैत्राली के. प्रधान	004	016-020
5.	B/15	लिना जे. नायर, जयकृष्णन एस. नायर	005	021-025
6.	A/21	लालजी आर. चौरसिया, रामजी आर. सौरसिया, शिवप्रसाद आर. चौरसिया	006	026-030
7.	A/22	सुहासिनी एस. परब	07	031-035
8.	B/23	सुनिल सी. नायर, पुष्पलता नायर	08	036-040
9.	B/24	रमेश एम. मयेकर	09	041-045
10.	B/25	नटवरलाल डी. वोरा	010	046-050
11.	A/31	नरेंद्र जे. ठक्कर	011	051-055
12.	A/32	अश्विन व्ही. सरैया, पारुल के. सरैया	012	056-060
13.	B/33	चेतना डी. चोक्सी	013	061-065
14.	B/34	आशा ए. पडियार	014	066-070
15.	B/35	चंद्रशेखर जी. जाम्बवलीकर	015	071-075
16.	Shop No.1		016	076-080
17.		रामहर्ष एच. सिंग, शारदादेवी शेषनाथ सिंग	017	081-085
18.		जयसुख आर. पेथाड, रतिलाल आर. पेथाड	018	086-090
19.	Shop No. 4	वैशाली आर. शाह, राजेश आर. शाह	019	091-095
20.		नुतन डी. सावंत	020	096-100
21.		नुतन डी. सावंत	021	101-105
22.		झालावाडी पुजा मंडळ, पुजक मंडळ बोरिवली	022	106-110
23.	Shop No. 8	सेजल ए. बोचिया	023	111-115
24.	Shop No. 9	मझहर उल हक	024	116-120

आम्हाला पुढे सुचित करण्यात आले आहे की, सदर मालमत्तेवर उभ्या असलेल्या इमारतीमधील फ्लॅटस् आणि/किंवा सदर मालमत्तेसंदर्भात कोणतेही तारण, मालकी हक्क, अधिकार आणि/किंवा अन्य इतर तृतीय पक्ष अधिकार सदर सोसायटीने निष्पादित केलेले नाही आणि सदर ताबा व वहिवाट सदर

सोसायटीने माझे अशील **मे. पोलो इन्फ्रा डेव्हलपर्स प्रा.लि.** यांच्यासह दिनांक २०.०९.२०२२ रोजीचे विकास करारनामा सदर मालमत्तेबाबर विकास अधिकार देण्यास मंजुरी आणि **अनुक्रमांक १२७८४/२०२२** अंतर्गत हमी उपनिबंधकांकडे नोंदणीकृत करारनामानुसार केले आहे आणि तदनसार वैयक्तिक सदस्य व फ्लॅट खरेदीदारांचे संबंधित अधिकार व मालमत्तेबाबत अधिकाराची मी चौकशी केरीत आहे

जर कोणी व्यक्ती, कंपनी, फर्म, व्यक्तींची संघटना, सार्वजनिक किंवा खासगी न्यास किंवा अन्य इतर संस्थेस जे या ठिकाणी विशेषत: नोंद आहेत आणि/किंवा अन्य इतरांस सदर मालमत्ता किंवा भागावर विक्री, अदलाबदल, करारनामा, बक्षीस, तारण, न्यास, वारसाहक्क, ताबा, मृत्युपत्र, परिरक्षा, मालकीहक्क, वहिवाट, भाडेपट्टा, परवाना, लिस पेन्डन्स, कायदेशीर हक्क किंवा अन्य इतर प्रकारे कोणताही अधिकार, हक्क, हिताचा दावा असल्यास किंवा कोणत्याही स्वरुपाचे दावा किंवा हित नमुद केलेले सूचना अधिकार असल्यास त्यांनी आवश्यक दस्तावेजांच्या प्रतिसह सदर सूचना प्रथम प्रकाशनापासून ७ दिवसांच्या कालावधीत आमचे कार्यालये फ्लॅट क्र.११५/बी विंग, शंकरवाडी को–ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि. **शंकरवाडी, पश्चिम द्रुतगती महामार्गाजवळ, जोगेश्वरी (पुर्व), मुंबई–४०००६३** येथे कळवावे. उपरोक्त कालावधीत सदर सूचना आमच्याकडे प्राप्त न झाल्यास असे समजले जाईल की, सदर सोसायटीचे सदर मालमत्तेवर असलेले संपूर्ण अधिकार हे स्पष्ट व बाजारभाव योग्य तसेच सर्व अधिभारापासून मुक्त आहेत किंवा दाव्यांचे धारकांनी त्यांचे दावे त्याग केले आहेत. अशा प्रसंगी सदर कालावधीनंतर उद्भवणारे कोणतेही दाव्यांच्या संदर्भाशिवाय सोसायटीला आम्ही आवश्यक अधिकार प्रमाणपत्र वितरीत करू.

वर संदर्भीत मालमत्तेची अनुसुची

जमीन उप-प्लॉट क्र.१, जुना सर्व्हे क्र.२५, सीटीएस क्र.५१२, जुना सर्व्हे क्र.२६, सीटीएस क्र.५११, नवीन सर्व्हे क्र.१२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १४९(भाग), संबंधित सीटीएस क्र.७६८, ७६९, ७६६, ७७९ व ७७२, गाव एक्सर, तालुका बोरिवली, जुना एफपी क्र.३२४, ६२४ व ६२५ नवीन एफपी क्र.२७५, ६२०, ७९९, क्षेत्रफळ ९०३ चौ.मी., टीपीएस क्र.३, बोरिवली (प.), नोंदणी जिल्हा व उपजिल्हा मुंबई शहर व मुंबई उपनगर तसेच त्यावर उभ्या असलेल्या इमारतीमध्ये तळ अधिक वरील ३ मजले, गोपाल टेरेस को–ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., कस्तुर पार्क, शिम्पोली रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००९२ येथील जिमनीचे सर्व भाग व खंड आणि चतुसिमा खालीलप्रमाणे:

पश्चिमेस वा त्या दिशेने: पब्लिक रोड ६० फीट रुंद;

दक्षिणेस वा त्या दिशेने: जुने एफपी ६२५, नवीन एफपी ७१९ चे सब प्लॉट १०; उत्तरेम वा त्या दिशेने: पब्लिक रोड ६० फीट रुंद:

पुर्वेस वा त्या दिशेने: जुने एफपी ६२५, नवीन एफपी ७१९ चे सब प्लॉट २. ठिकाण : मंबर्ड श्री, एकता मह्यावंर्श दिनांक : २४ मार्च, २०२३ वकील-उच्च न्यायालर

#### NOTICE

Shri IMRAN RIZVI AZIZULLAH KHAN & ABDUL MAJEED ANSARI a Member of the CHISHTIYA Co-operative Housing Society Ltd. having, address at FARZAND APPT. 7A Badlu Rangari St. Byculla, Mumbai-4008 and holding flat No A-502 in the building of the society, died on 20/11/202130/05/2020 without making any nomination. The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other claimants/objector or objectors to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society within a period of days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/ objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society. If no claims/ objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society in such manner as is provided under the bye-laws of the society. The claims/ objections, if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the society. A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimants/ objectors, in the office of the society/ with the secretary of the society between 8.30pm to 10.30pm, from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.

Place: Mumbai Date: 20/03/2023

For and on behalf of The Chishtiya Co-op. Housing Society Ltd

Hon, Secretary

#### जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सचना देण्यात येत आहे की. माझे अशील अर्थात **श्री. सोन भरत शर्मा** यांर्न फ्लॅट क्र.०५, तळमजला, क्षेत्रफळ २०० चौ.फ्, बाळकृष्ण ज्योत को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि म्हणून ज्ञात सोसायटी, बी.पी. रोड क्र.४, भाईंदर पुर्व, जमीन जुना सर्व्हे क्र.१३८, नवीन सर्व्हे क्र.५४/ २१, महसूल गाव खारी, तालुका व जिल्हा ठाणे, नोंदणी जिल्हा व उपजिल्हा ठाणे येथील जागा दिनांक ०९.०२.२०२३ रोजीचे नोंदणीकृत विक्री करारनामानुसार **श्री. दिपक प्रविणलाल शाह** यांच्याकडून खरेदी केले आहे.

मे. दिप बिल्डर्स, बिल्डर्स आणि श्री. सुरेशभाई बी. रावल व श्री. मनुभाई आर. रावल, खरेदीदार यांच्या दरम्यान २५.१२.१९८१ रोजीचा विक्री करारनामा झाला होता.

श्री. सुरेशभाई बी. रावल व श्री. मनुभाई आर. रावल, विक्रेता आणि श्री. जगदीशकुमार आय. रावल खरेदीदार यांच्या दरम्यान १०.०४.१९८२ रोजीचा विक्री करारनामा झाला होता

श्री. जगदीशकुमार आय. रावल, विक्रेता आणि श्री. गौरालिंगा पुरप्पा कांबळे, खरेदीदार यांच्या दरम्या ३०.११.१९८२ रोजीचा विक्री करारनामा झाला होता.

श्री. गौरालिंगा पुरप्पा कांबळे, विक्रेता आणि श्रीमती कोकीलाबेन पी. शाह, खरेदीदार यांच्या दरम्या

१४.१२.१९८७ रोजीचा विक्री करारनामा झाला होता. सदर श्रीमती कोकीलाबेन प्रविणलाल शाह यांचे १७.०८.२००० रोजी निधन झाले आणि त्यांचे पती श्री प्रविणलाल अमृतलाल शाह यांचे १७.०६.२०१९ रोजी निधन झाले, त्यांचे निधनानंतर त्यांचे कायदेशी वारसदार श्री. शैलेश प्रविणलाल शाह, श्री. अजयकुमार प्रविणलाल शाह व श्री. दिपक प्रविणलाल शाह

हे सदर फ्लॅटचे कायदेशीर वारसदार व मालक झाले. श्री. शैलेश प्रविणलाल शाह, श्री. अजयकुमार प्रविणलाल शाह, मुक्तकर्ते आणि श्री. दिपक प्रविणला शाह, प्राप्तकर्ते यांच्या दरम्यान दिनांक ०४.०८.२०२१ रोजीचे नोंदणीकृत अ.क्र.टीएनएन-७-१०७३९/ २०२१ अंतर्गत नोंदणीकृत दिनांक ०४.०८.२०२१ रोजीचे मुक्तता करारनामाद्वारे सदर श्री. शैलेश प्रविणलाल शाह. श्री. अजयकमार प्रविणलाल शाह यांनी सदर फ्लॅटमधील त्यांचे अधिकार, हक्क व हित

दिनांक १४.१२.१९८७ रोजीचा सदर मुळ विक्री करारनामा माझ्या अशिलाच्या ताब्यातु हरवले आहे आणि सापडलेले नाही.

जर कोणा व्यक्तीस सदर फ्लॅट किंवा भागावर विक्री, बक्षीस, भाडेपट्टा, वारसाहक्क, अदलाबदर अधिभार, मालकीहक्क, न्यास, ताबा, तारण, कायदेशीर हक्क, जप्ती किंवा अन्य इतर प्रकारे कोणत्याही म्बरुपाचा टावा किंवा अधिकार असल्यास त्यांनी त्यांचे दावे सदर सूचना प्रकाशनापासून **१४ दिवसां**त खालील स्वाक्षरीकर्ताकडे त्यांचे कार्यालयात सर्व आवश्यक दस्तावेजांसह कळवावे. अन्यथा असे समजले जाईल की, सदर फ्लॅटवर कोणताही दावा नाही.

मुंबई, आज दिनांकीत २४ मार्च, २०२३

श्री. दिपक प्रविणलाल शाह यांच्या नावे मुक्त केले.

सही/-राजिकशोर झा अँण्ड असोसिएट्स विकल, उच्च न्यायालय, मुंबई जी-२, तळमजला, प्रॉस्पेक्ट चेंबर विस्तारीत, सिटी बँक समोर, पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१. मोबा.:९३२३३८६१३५

#### NOTICE

Shri ABDUL MAJEED ANSARI & IMRAN RIZVI AZIZULLAH KHAN a Member of the CHISHTIYA Co-operative Housing Society Ltd. having, address at FARZAND APPT. 7A Badlu Rangari St. Byculla, Mumbai-4008 and holding flat No A-501.in the building of the society, died on 30/05/202020/11/2021 without making any nomination. The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other aimants/objector or objectors to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society within a period of days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/ objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society. If no claims/ objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society in such manner as is provided under the bye-laws of the society. The claims/ objections, if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society shall be dealt with in the manner provide under the bye-laws of the society. A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimants/ objectors, in the office of the society/ with the secretary of the society between 8,30pm to 10,30pm, from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.

Place: Mumbai For and on behalf of The Chishtiya Co-op. Housing Society Ltd Date: 20/03/2023 Hon. Secretary

#### जाहीर सूचना

वेद्यमान मालक **श्रीमती जिन्ना विभाकर भट्ट** व **श्री. पुनित विभाकर भट्ट**, फ्लॅट क्र.१, ४था मजला, बी विंग, गोकुल ग्राम कोहौसोलि., पेट्रोल पंपाच्या मार्ग, केवनीपाडा, एस.व्ही. रोड, जोगेश्वरी (प.) मुंबई-४००९०२, क्षेत्रफळ ५९० चौ.फु. बिल्टअप क्षेत्र अर्थात ५४.८३ चौ.मी. बिल्टअप क्षेत्र आणि ु इमारतीमध्ये तळ अधिक ५ वरील मजले लिफ्टसह आहेत, प्लॉट जमीन सीटीएस क्र.४९९, ५०२, . ५१३, गाव आम्बीवली, तालुका अंधेरी (यापुढे सदर फ्लॅट) तसेच दिनांक ८ मे, २००३ रोजी सदर सोसायटीद्वारा हस्तांतरीत अनुक्रमांक १२६ ते १३० (दोन्हीसह) भागप्रमाणपत्र क्र.०२६ असलेले रु.५०/ - प्रत्येकीचे ५ शेअर्ससह निवासी सदनिका खरेदी करण्याचे माझे अशिलांनी मान्य केले आहे, त्यांच्या वतीने मी बोजाविरहीत अधिकार, हक्क व हितबाबत चौकशी करीत आहे.

विद्यमान मालकांचे पुर्वीचे अधिकार करारनामा व दस्तावेजांचे तपशील खालीलप्रमाणे

- १. मे. शांती गोपाल बिल्डर्स आणि प्रथम खरेदीदार श्री. वसंत रावजी छेडा यांच्या दरम्यानचा दिनांक २७ डिसेंबर, १९८६ रोजीचा अ-नोंदणीकृत विक्री करारनामा (प्रथम दस्तावेज).
- श्री. वसंत रावजी छेडा आणि द्वितीय खरेदीदार श्री. विभाकर शंकरलाल भट्ट व श्री. शंकरलात हरिशंकर भट्ट यांच्या दरम्यानचा दिनांक २ जानेवारी, १९९३ रोजीचा संलग्न अ-नोंदणीकृत विक्री करारनामा (द्वितीय करारनामा)
- श्री. शंकरलाल हरिशंकर भट्ट, ज्यांचे ५०% शेअर आहेत यांचे कोणतेही इच्छापत्र किंवा मृत्युपत्र न करता १३ जानेवारी, १९९४ रोजी निधन झाले आणि त्यांच्या पश्चात त्यांचा मुलगा श्री. विभाकर शंकरलाल भट्ट हे कायदेशीर वारसदार आहेत.
- दिनांक २५ मे, २००१ रोजीचे दस्तावेज क्र.बीबीजे/४०९६/२००१ धारक दिनांक ९ मे, २००१ रोजीचे नोंदणीकृत निश्चिती करारनामा ज्यामध्ये श्री. विभाकर शंकरलाल भट्ट यांनी निश्चित केले आहे की, ते आणि त्यांचे मयत वडील हे उपरोक्त फ्लॅटचे संयुक्त खरेदीदार होते आणि तद्नुसार सोसायटीने त्यांच्या नावे उपरोक्त भागप्रमाणपत्र क्र.०२६ वितरीत केले होते (तृतीय दस्तावेज) (वरील दोन सह संबंधित)
- श्री. विभाकर हरिशंकर भट्ट यांचे १००% शेअर्स आहेत, यांचे ६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी निधन झाले, यांचेही कोणतेही इच्छापत्र किंवा मृत्युपत्र नव्हते आणि त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी व मुलगा असे दोन कायदेशीर वारसदार अर्थात विद्यमान मालक आहेत आणि सोसायटीने कायदेशीर वारसदार म्हणून त्यांच्या नावे ५ मार्च, २०२३ रोजी सदर शेअर्स हस्तांतर केले.

जर कोणा व्यक्तीस सदर फ्लॅट किंवा भागावर विक्री, बक्षीस, भाडेपट्टा, मालकी हक्क, मुक्तता, अधिभार न्यास, तारण, परिरक्षा, कायदेशीर हक्क किंवा अन्य इतर प्रकारे कोणताही अधिकार, हक्क, दावा किंव मागणी असल्यास त्यांनी लेखी स्वरुपात खालील स्वाक्षरीकर्ताकडे मळ दस्तावेजांसह त्यांचे कार्यालय दकान क्र.१७, तळमजला, निर्मला कोहौसोलि., सिझर रोड व जे.पी. रोडचा जंक्शन, अंधेरी (प.), मुंबई-४०००५८, **मोबा.:**९८२०८३८३७३ येथे सदर सूचना प्रकाशनापासून **१४ दिवसां**त कळवावे. अन्यथा अशा व्यक्तींचे दावा त्याग/स्थगित केले आहेत असे समजले जाईल आणि सदर चार मालमत्तेबाबत कोणताही दावा विचारात न घेता विक्री व्यवहार मालक व इच्छुक खरेदीदाराच्या दरम्यान पूर्ण केला जाईल.

ठिकाण: मुंबई दिनांक: २४ मार्च, २०२३

शैलेश बी. शाह वकील उच्च न्यायालय नोंदणी क्र.एमएएच/६४४/१९८८

This is only an advertisement for information purpose and does not constitute an offer document announcement or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. Not for publication, r release, directly or indirectly into the United States of America or otherwise Outside India



by the Registrar of Companies, Maharashtra. For further details relating to change in the registered office address of our Company, please see "General Information" on page 34 of the Letter of Offer. Registered Office: 309, Veer Savarkar Marq, Opposite India United Mills, Near Prabhadevi Telephone Exchange, Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India

wally, opposite intal officer willing, recar instantacy in epiphone Exchange, based in Tel: (+91 22) 62559700 Email Id: <a href="mailto:sec@amal.co.in">sec@amal.co.in</a>; Website: <a href="mailto:www.amal.co.in">www.amal.co.in</a>; Contact Person: Mr. Ankit Mankodi, Company Secretary and Compliance Officer

Corporate Identification Number: L24100MH1074DLC0176 PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SUNIL LALBHAI, MRS. VIMALBEN LALBHAI, MS. SWATI LALBHAI AND MS. TARAL LALBHAI

ISSUE OF 29,37,662 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹10 EACH AT A PRICE OF ₹170/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹160/- PER EQUITY SHARE) ('RIGHTS EQUITY SHARES') FOR AN AMOUNT AGGREGATING TO ₹4,994.03 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF AMAL LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") IN the ratio of 24 rights equity shares for every 77 fully paid-up equity shares held by such eligible equity shareholders on the record date, that is on FEBRUARY 21, 2023 (THE "ISSUE")

#### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Amal Limited wishes to thank all its members and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Monday, March 6 2023, and closed on Tuesday, March 14, 2023. The last date for on market renunciation of Rights Entitlement was Wednesday, March 08, 2023. Out of a total of 1913 Applications received for 54,554 Equity Shares were rejected due to duplicate bid entries. The total number of valid applications received were 1811 Applications for 33,89,993 Equity Shares aggregating to ₹57,62,98,810/- which was 115.40 % of the issue size

In accordance with the Basis of Allotment finalized on March 20, 2023, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE Limited ('BSE'), the Designated Stock Exchange for the Issue the Company has on March 21, 2023 allotted 29,37,662 Equity Shares to the successful applicants. All valid applications have been considered for Allotme 1. Basis of Allotment:

Category No. of Number of Rights Equity Shares Number of Rights Equity Shares Total Rights Equity Allotted - Against valid additional share Allotted - against Rights Entitlement Applications 22,35,944 29,26,430 Eligible Equity Shareholders 33 11,232 11,232 Renouncees 6.90.486 Total 1615 22.47.176 29.37.662

2. The break-up of Applications after Technical rejections/Partial Rejections is given below

Category		Gross		Less	: Rejections/Pa	artial Amount	Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	1,778	33,60,057	57,12,09,690	196	25,254	42,93,180	1,582	33,34,803	56,69,16,510
Renouncees	33	29,936	50,89,120	-	•	-	33	29,936	50,89,120
Total	1,811	33,89,993	57,62,98,810	196	25,254	42,93,180	1,615	33,64,739	57,20,05,630
								•	

\*The Gross Applications excludes Duplicate Bid Entries.

The Equity Shares are being offered on a rights basis to existing Eligible Equity Shareholders in the ratio of Twenty Four Equity Shares for every Seventy Seven Fully Paid-up Equity Shares held as on the Record Date on February 21, 2023. As per SEBI Rights Issue Circulars, the fractional entitlements are to be ignored

Intimation for allotment/ refund/ rejections cases: The dispatch of Allotment Advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors by e-mail only have been completed or March 23, 2023. The instruction to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Applicants were given on March 20, 2023. The Company has filed the listing application seeking permission for listing of 29,37,662 equity shares issued on Rights Basis with the BSE Limited ("BSE") on March 21, 2023. The listing application filed by the

Company has been approved by BSE vide their letter no.LOD/RIGHT/VK/FIP/3241/2022-23 dated March 22, 2023. The Company will make application seeking permission for trading of 29,37,662 equity shares issued on Rights Basis with the BSE. Credit of equity shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on March 22 2023. For further details, see "Terms of the Issue Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on page 157 of the Letter of Offer. The trading is expected to be commence on BSE on or about March 24, 2023, In accordance with SEBI circular

dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on March 22, 2023. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THIS RIGHTS ISSUE SHALL HAVE THE SAME ISIN (I.E. INE841D01013) AS THE EXISTING LISTED EQUITY SHARES. INVESTORS ARE FURTHER ADVISED TO NOTE THAT THOUGH THESE EQUITY SHARES MAY GET CREDITED TO THEIR RESPECTIVE DEPOSITORY ACCOUNTS. THEY SHOULD TRADE

IN SUCH EQUITY SHARES ONLY AFTER ASCERTAINING THAT TRADING APPROVAL HAS BEEN ISSUED AND NOTIFIED BY BSE. THIS INFORMATION WOULD ALSO BE POSTED ON THE WEBSITE OF THE STOCK EXCHANGE. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the Issue is ₹5,000 Lakhs. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Other Regulatory and Statutory Disclosures – Disclaimer Clause of SEBI" on page 125 of the Letter of Offer. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer

as been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of the BSE" on page 125 of the Letter of Offer. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the Letter of Offer dated February 18, 2023. Any correspondence in respect of allotment of Rights Equity Shares

pertaining to the Issue may be addressed to the Registrar to the Issue at the address mentioned below

#### KEYNOTE

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Keynote Financial Services Limited The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028 Tel: +91 22 6826 6000

E-mail: mbd@keynoteindia.net Website: www.keynoteindia.net Contact Person: Sunu Thomas SEBI Registration No.: INM 000003606

#### REGISTRAR TO THE ISSUE **LINK**Intime

Link Intime India Private Limited C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai – 400 083 Tel: +91 22 4918 6200 E-mail: amal.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER



309, Veer Savarkar Marg, Opposite India United Mills. Near Prabhadevi Telephone Exchange, Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India Tel: (+91 22) 62559700 Email Id: sec@amal.co.in Website: www.amal.co.ir Contact Person: Ankit Mankodi

Investors may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSBs, where the Application Form or the plain paper application, as the case may be vas submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip . For details on the ASBA, see "Terms of the Issue" on page 132 of the Letter of Offee

For Amal Limited Ankit Mankodi

Place: Mumbai

सही /

Company Secretary & Compliance Officer

16.03.2023 (आदेश 22.03.2023 को प्राप्त हुई)

ये 1670/120, भूतल, शान्ति नगर, त्रिनगर, दिल्ली-110035

एफएस फ्लैट्स, शक्ति अपार्टमेन्ट्स, अशोक विहार

परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर : राकेश कुमार जैन

सीआईएन:U40300HR2008PTC038120

1198, सैक्टर-7डी फरीदाबाद-121006, हरियाणा

वित्त वर्ष 2021—22: परिचालन से राजस्व शून्य है

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की तिथि के

अनुसार कोई कर्मचारी नहीं

cirp.suryashakti@gmail.com

पर ईमेल भेजकर मांग की जा सकती है

पर ईमेल भेजकर मांग की जा सकती है

समाधान प्रोफेशनल को

23 अप्रै ल 2023

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, सूर्या शक्ति रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-003/IPA-N00223/2019-2020/12640

पताः बी– ४३ए, पहली मंजिल, कालकाजी, नई दिल्ली – 110019

पत्राचार का पताः जीएफ 14, टॉवर ए, द कोरेंथम्

पंजी. सं. : IBBI/IPA-001/1P-P01297/2018-19-19/12068

प्रपत्र बी

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]

आरजी इन्फ्रा बिल्ड प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान सं. U70101DL2005PTC135052

तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का सिटी सेन्टर, लॉरेन्स रोड, दिल्ली-110035

प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या पंजी. सं. : IBBI/IPA-001/IP-P01297/2018-

19/12068

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, कोर्ट-11, नई दिल्ली ने 16.3.2023

(आदेश 22.3.2023 को प्राप्त हुई) को आरजी इन्फ्रा-बिल्ड प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने

एतदुद्वारा आरजी इन्फ्रा-बिल्ड प्राईवेट लिमिटेड स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 मे

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी

क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर

प्रपत्र—'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

सूर्या शक्ति रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड एच-1198 सैक्टर -7डी,

फरीदाबाद - 121006, हरियाणा में स्टॉक ब्रोकिंग का परिचालन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध

अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण कॉर्पोरेट वेनदार का नाम सर्या शक्ति रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड

लागू नहीं

लागू नहीं

लागु नहीं

वर्णित पते परिसमापक के पास 21.04.2023 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

"दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

फेज-111. दिल्ली-110052

rginfrabuild@gmail.com

rakeshjainca@rediffmail.com

कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि 15.04.2005

इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की 16.03.2023

ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है

प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल

साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.

उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश

मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित

मुख्य उत्पादों की मात्रा और मृल्य /

कर्मचारियों / कामगार की संख्या

दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय

के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित

अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं

सूची जारी करने की तिथि

अंतरिम सची के बारे में आपत्तियां

प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि

अंतिम तिथि

ईमेल आईडी

विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों

की सची प्रक्रिया की बाद की घटनाओं

संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान प्रोफेशनल को

अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेत् 08 अप्रै ल 2023

संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम 18 अप्रै ल 2023

समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां cirp.suryashakti@gmail.com

13 ईओआई जमा करने के लिए संसाधित | cirp.suryashakti@gmail.com

पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं

पंजीकृत कार्यालय का पता

अचल संपत्तियां स्थित हैं।

3. वेबसाइट का युआरएल

होने की तिथि

ईमेल

का आदेश दिया है।

सकते हैं।

स्थानः दिल्ली

तिथि : 22.03.2023

सार्वजनिक सचना मैसर्स मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") जिसका पंजीकृत कार्यालय जी–12/ए, पहली मंजिल, हौज खास, नई दिल्ली 110016 में और कॉपोरेंट ऑफिस विपुल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43 गुरुग्राम-122009, हरियाणा में है ने विपुल गार्डन्स, धारूहेड़ा, हरियाणा की परियोजना में धरोहर राशि सह बुकिंग राशि के बदले आवासीय/वाणिज्यिव

फ्लैटों का अनंतिम आवंटन किया था और कंपनी के आवेदन प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते वक्त आवंटन में नियमों औ कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार, निम्नलिखित आवंटियों ने अपने संबंधित बकाया/किश्तों/ब्याज आदि क भगतान प्रावधान आवंटन (आबंटन) की शर्तों के अनुसार नहीं किया है, कई अनुस्मारक/लिखित संचार के बावजूर्व और इसके एक समह के रूप में. अनंतिम संदर्भित इकाई(यों) का आवंटन रह किया जाता है।

क्र . सं.	आवेदक का नाम	टॉवर	यूनिट		क्षेत्र (व फुट)
1	श्री रजत ओहरी	6	902	जी-72, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली- 110024	1240
2	श्रीमती मदालसा कुमार	5	505	पता उपलब्ध नहीं	747
3	श्री मनप्रीत सिंह	5	605	जे- 1301, पालम विहार, गुड़गांव - 122015	747
4	सुश्री नीलूफार खनाम	6	1201	फ्लैट नंबर 1202, टावर-14, ऑर्किड पेटल्स, ओमैक्स मॉल के पीछे, सोहना रोड, गुड़गांव	1261
5	श्री धीरज अस्थाना	9	601	फ्लैट नंबर 104, टावर- 25, ऑर्किड पेटल्स, सोहना रोड, गुड़गांव- 122018	1844
6	श्रीमती शालिनी शर्मा	10	1201	बी-46, फ्लैट नंबर-एस-5, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी- 201005	1535
-				हिते एवं कृते मुद्रा फाइनेंस	लिमित

प्रपत्र-'जी' अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन प्रासंगिक विवरण

कॉर्पोरेट देनदार का नाम |टैक्सस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U45400DL2009PTC187069 2. पंजीकृत कार्यालय का पता एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः युनिट नंबर 102, वर्धमान सेंटर, प्लॉट नंबर 3, पहली मंजिल, बीएच-ब्लॉक, एलएससी, शालीमार बाग, दिल्ली-110088 (परिसर पहले ही खाली हो चुका है) सोलर प्लांट का पताः खसरा नं 134,140,141,143 ग्राम रापर खोखरा, तालका अंजार, जिला कच्छ, गुजरात – 370510 CIRP के विशिष्ट वेबपेज पर पहुँचा जा सकता है वेबसाइट का युआरएल https://stellarinsolvency.com/public-announcement/ taxus-infrastructure-and-power-projects-private-limited िउस स्थान का विवरण जहां अधिकांश खसरा ने 134,140,141,143 ग्राम रापर अचल संपत्तियां स्थित हैं खोखरा, तालुका अंजार, जिला कच्छ, गुजरात – 370510 मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र वित्तीय वर्ष / अवधिः वित्तीय वर्ष के दौरान 2021–22 मुख्य उत्पादों की मात्रा और मृत्य / पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं राशि (हजार रुपये में) : रुपये 7,749 / -. कर्मचारियों / कामगार की संख्या

उपरोक्त बिंदु 3 में प्रदान किए गए कॉर्पोरेट देनदार के े दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सीआईआरपी विशिष्ट वेबपेज पर उपलब्ध है । सची. प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के अधिक जानकारी के लिए आवेदक ईमेल के माध्यम से लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक (नीचे बिंदु 13 में दिया गया है) इसे साझा करने के लिए विवरण यहां उपलब्ध हैं समाधान प्रोफेशनल से अनुरोध कर सकते हैं । अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए विस्तत आमंत्रण जिसमें 9. संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करने वाले नियम और शर्ते शामिल हैं. समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपरोक्त बिंदु 3 में प्रदान किए गए कॉर्पोरेट देनदार के उपलब्ध है सीआईआरपी विशिष्ट वेबपेज पर उपलब्ध है ।

10. अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेत | 08 अप्रै ल. 2023 (शनिवार) शाम 05:00 बजे तक

डाक के माध्यम से या नीचे दिए गए बिंदु 13 में प्रदान किए गए परियोजना विशिष्ट पते पर व्यक्तिगत रूप से डिलीवरी द्वारा प्रस्तुत करेंगे । लिफाफे को "टैक्सस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्रोर्जेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (CIRP के तहत) के लिए "ईओआई" के रूप में लिखा जाना चाहिए संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम 13 अप्रैल, 2023 (बृहस्पतिवार) सूची जारी करने की तिथि 12. अंतरिम सुची के बारे में आपत्तियां 18 अप्रैल, 2023 (मंगलवार) प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 13. ईओआई जमा करने के लिए संसाधित परियोजना विशिष्ट पताः स्टेलर इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स

क नद्य 🗸 समावित सकल्प आवदक इंआआई का इम्ल

के माध्यम से और एक सीलबंद लिफाफे में स्पीड / पंजीकृत

एलएलपी (आईपीई), सुइट 310, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली

हाउस, 27 बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 प्रोजेक्ट ई—मेल आईडी: ip.taxusippl@gmail.com नोट: इच्छक संभावित बोलीदाताओं को दूसरे दौर के लिए कॉल करने की प्रक्रिया और संबंधित समयरेखा, जैसा कि इस फॉर्म–जी में उल्लिखित है. प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए माननीय एनसीएलटी अनुमोदन पर

समाधान प्रोफेशनल, टैक्सस इंफ्रास्टक्चर एंड पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत पंजीकरण सं : IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931 तिथि: 23.03. 2023 आईबीबीआई के साथ पंजीकृत पता: ईजी-46, इंदर पुरी, नई दिल्ली-110012 पंजीकत ईमेल : dsanand57@gmail.com

तिथि: 24.03. 2023 सैक्टर 62, नोएडा — 201301, उत्तर प्रदेश स्थान: नई दिल्ली स्थानः दिल्ली This is only an advertisement for information purpose and does not constitute an offer document announcement or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. Not for publication, distribution, or release, directly or indirectly into the United States of America or otherwise Outside India

देवेंद्र उमराव

एएफए 10 नवंबर, 2023 तक वैध

र्डमेल आईडी और पता



Amal Limited was incorporated as a public limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 as "Piramal Rasayan Limited" pursuant to a certificate of incorporation dated July 4, 1974 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra. For further details relating to change in the registered office address of our Company, please see "General Information" on page 34 of the Letter of Offer. Registered Office: 309, Veer Savarkar Marg, Opposite India United Mills, Near Prabhadevi Telephone Exchange, Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India

Tel: (+91 22) 62559700 Email Id: sec@amal.co.in: Website: www.amal.co.in

Contact Person: Mr. Ankit Mankodi, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L24100MH1974PLC017594 PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SUNIL LALBHAI, MRS. VIMALBEN LALBHAI, MS. SWATI LALBHAI AND MS. TARAL LALBHAI

ISSUE OF 29.37.662 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹10 EACH AT A PRICE OF ₹170/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹160/- PER EQUITY SHARE) ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT AGGREGATING TO ₹4,994.03 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF AMAL LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") IN

THE RATIO OF 24 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 77 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 21, 2023 (THE "ISSUE").

**BASIS OF ALLOTMENT** The Board of Directors of Amal Limited wishes to thank all its members and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Monday, March 6 2023, and closed on Tuesday, March 14, 2023. The last date for on market renunciation of Rights Entitlement was Wednesday, March 08, 2023. Out of a total of 1913 Applications received for 34,44,547 Equity Shares, 102 Applications received for 54,554 Equity Shares were rejected due to duplicate bid entries. The total number of valid applications received were 1811 Applications for 33,89,993 Equity Shares

aggregating to ₹57,62,98,810/- which was 115.40 % of the issue size.

In accordance with the Basis of Allotment finalized on March 20, 2023, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE Limited ('BSE'), the Designated Stock Exchange for the Issue the Company has on March 21, 2023 allotted 29,37,662 Equity Shares to the successful applicants. All valid applications have been considered for Allotment. 1. Basis of Allotment: Number of Rights Equity Shares Category No. of **Number of Rights Equity Shares** Total Rights Equity

**Applications** Allotted - against Rights Entitlement Allotted - Against valid additional shares **Shares Allotted** Eligible Equity Shareholders 1582 22,35,944 29,26,430 Renouncees 11,232 11,232

Total		16	315	2	2,47,176	6,90,486			29,37,662
2. The break-up of Applications a	2. The break-up of Applications after Technical rejections/Partial Rejections is given below:								
Category	Gross*	Gross*		Less: Rejections/Partial Amount		Valid			
	Applications	Shares	Amount (₹ )	Applications	Shares	Amount (₹ )	Applications	Shares	Amount (₹ )
Eligible Equity Shareholders	1,778	33,60,057	57,12,09,690	196	25,254	42,93,180	1,582	33,34,803	56,69,16,510
Renouncees	33	29,936	50,89,120	-		- "	33	29,936	50,89,120

Renouncees Total 1,811

33,89,993 42,93,180 \*The Gross Applications excludes Duplicate Bid Entries.

ब्याज एवं

अन्य प्रभार

27.12.2022 तक

रु. 16,77,315.89/-

तथा 27.12.2023 से

The Equity Shares are being offered on a rights basis to existing Eligible Equity Shareholders in the ratio of Twenty Four Equity Shares for every Seventy Seven Fully Paid-up Equity Shares held as on the Record Date on February 21, 2023. As per SEBI Rights Issue Circulars, the fractional entitlements are to be ignored.

Intimation for allotment/ refund/ rejections cases: The dispatch of Allotment Advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors by e-mail only have been completed on March 23, 2023. The instruction to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Applicants were given on March 20, 2023.

The Company has filed the listing application seeking permission for listing of 29,37,662 equity shares issued on Rights Basis with the BSE Limited ('BSE') on March 21, 2023. The listing application filed by the Company has been approved by BSE vide their letter no.LOD/RIGHT/VK/FIP/3241/2022-23 dated March 22, 2023. The Company will make application seeking permission for trading of 29,37,662 equity shares issued on Rights Basis with the BSE.

Credit of equity shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on March 22 2023. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on page 157 of the Letter of Offer. The trading is expected to be commence on BSE on or about March 24, 2023, In accordance with SEBI circular

dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on March 22, 2023 INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THIS RIGHTS ISSUE SHALL HAVE THE SAME ISIN (I.E. INE841D01013) AS THE EXISTING LISTED EQUITY

WEBSITE OF THE STOCK EXCHANGE. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the Issue is ₹5,000 Lakhs. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on page 125 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of the BSE" on page 125 of the Letter of Offer.

All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the Letter of Offer dated February 18, 2023. Any correspondence in respect of allotment of Rights Equity Shares

pertaining to the Issue may be addressed to the Registrar to the Issue at the address mentioned below

REGISTRAR TO THE ISSUE LEAD MANAGER TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

**LINK**Intime KEYNOTE

Link Intime India Private Limited The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), 309, Veer Savarkar Marg, Opposite India United Mills, Mumbai - 400 083 Near Prabhadevi Telephone Exchange, Dadar West, Tel: +91 22 4918 6200 Mumbai 400 028, Maharashtra, India E-mail: amal.rights@linkintime.co.in **Tel**: (+91 22) 62559700 Website: www.linkintime.co.in Email Id: sec@amal.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan

SEBI Registration No.: INM 000003606 Investors may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked., ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSBs, where the Application Form or the plain paper application, as the case may be,

was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA, see "Terms of the Issue" on page 132 of the Letter of Offer. For Amal Limited

Ankit Mankodi **Date:** March 23, 2023

दि ब्रेथबेईट बर्न एंड जेसॉप कन्स्टक्शन कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजी. कार्या.: 27, राजेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 फोन नं. (033)2248-5841-44, फैक्स: (033) 2210-3961 ईमेल:info.bbjconst@bbjconst.com; वेबसाईटः www.bbjconst.com ई-निविदा आमंत्रण सूचना

आरडीएसओ/स्वीकृत रेखांकनों के अनुसार ब्रिज नं. 63 डी (स्पैन 9x45.7 एम ओडब्ल्यूजी) के लिये स्टील ट्रस गर्डर्स के फैब्रिकेशन, सैण्ड ब्लास्टिंग, मेटलाइजिंग, पैन्टिंग, ट्रायल एसेम्बलिंग, डिस्मैन्टलिंग, स्टॉकिंग, गडाड-होत्गी, कर्नाटक के निकट साईट पर परिवहन के लिये प्रख्यात एजेन्सी फैब्रिकैटर से दो

बोली प्रणाली के अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रित है। निविदा सं. eNIT/DGM(P-V)/FAB/2151/3132/06-2023 तिथि 24.03.2023, ईएमडी:

दस्तावेज https: eprocure.gov.in/eprocure./app एवं/अथवा/ www.bbjconst.com से डाउनलोड की जा सकती है। (निविदा आईडी: 2023 BBJC 746518 1) मुहरबंद

ई-बिड (दो लिफाफे प्रणाली) ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से 24.02.2023 के 15.00 बजे तक अपलोड की जा सकर्त है तथा ई-निविदा (तकनीकी) को 25.04.2023 के 15.00 बजे में खोला जाएगा। ''शृद्धिपत्र'' यदि कोई हो केवल बीबीजे की वेबसाईट एवं ई-प्रॉक्योर्मेन्ट पोर्टल पर उपलब्ध होगा तथा किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

### SARDAR PATEL COLLEGE, HILSA NALANDA (BIHAR)

University for different work 1. Construction

The intending person/firms can obtained (Ten Thousand only non-refundable) The duly completed tenders in all respect along with 2% E.M. as NSC/DD/TD and all documents mentioned as specified must be submitted in sealed envelope up to

The undersigned shall have right to reject any or all tenders without assigning any reason thereof.

प्ररूप संख्या आईएनसी 27क (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 37

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र

इन्क्रेडिबल मैनेजमेन्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (असीमित कंपनी), जिसका रजिट्रिकृत कार्यालय 29, दसरी मंजिल, शिवाजी मार्ग, पश्चिम दिल्ली,

दिल्ली-110015 है, के मामले में, याची यह नोटिस साधारण जनता को दी जा रही है कि कंपनी केंद्रीय सरकार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के तहत तारीख 20/03/2023 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के सगम ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि की मांग करते हुए आवेदन करने को प्रस्ताव करती है ताकि कंपनी असीमित देयता को सीमित देयता में

कोई व्यक्ति जिसका हित असीमित देयता को सीमित देयता में परिवर्तित करने के प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कंपनी रजिट्रार (चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नर्ड दिल्ली— 110019) को एक शपथ पत्र जिसमें उनके हितों की प्रकार और आपत्ति का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्तियों को के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिट्रिकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं या सुपुर्द करवा सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिटिकत

पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110015

निदेशक (01046314) तारीखः 24/03/2023 स्थानः दिल्ली

रजनीश दत्ता

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।, दिल्ली चतुर्ध तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001 ओ. ए नं. 223 / 2021

(1) राहुल सिंह, निवासी: ए-60 टॉप फ्लोर पांडव नगर दिल्ली-110092, और: एस-15

दिल्ली -110092 एस-15 टॉप फ्लोर, पांडव

दिल्ली-110092, **और:** Religious यात्रा पार्टनर के रूप में नामित, ए-17 गणेश नगर कॉम्प्लेक्स, पांडव नगर, दिल्ली -110092 प्रतिवादी 2 (3) मैसर्स गायत्री हॉस्पिटैलिटी एंड रियलकॉन

लिमिटेड 9/929ए, ओल्ड सीलमपुर, गांधी नगर दिल्ली-110031 और: एच133, सेक्टर-63, नोएडा 201301 और: गायत्री ऑरा, प्लॉट नं, जीएच-11, सेक्टर-1, ग्रेंटर नोएडा (पश्चिम) उत्तर प्रदेश-201301

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें) फोन :

अनुपस्थिति में किया जाएगा

और उस उद्देश्य हेत् किया जाएगा।

(cii) "रजिस्टार / रिकवरी ऑफिसर-- । / और रिकवरी ऑफिसर-।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात "d02rt.gov.in". किसी भी जानकारी हेत्. एडवोर्केटस/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 011-23748473

पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत 23 मार्च, 2023 को दिया गया।

एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी- ।, नई दिल्ली

अमित के. दार.

फोन नं. 011-23748473

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार, प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते है।

डीसीबी बैंक लिमिटेड 7/56, 'ए' सेट हाउस, देश बंधु गुप्ता रोड

करोल बाग, नई दिल्ली – 110005

DCB BANK

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए) चूंकि,अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)

नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.03.2020 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें मैसर्स सुमेरु प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके परिसमापक श्री राजीव मलिक के माध्यम से). श्री नीरज झा. श्री धीरेन नवलखा और श्री फरहाद सरी को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 12,10,50,535.60 / – (रुपये बारह करोड़ दस लाख पचास हजार पांच सौ पैंतीस और साठ पैसा मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का पुनर्भुगतान करने को कहा गया। कर्जदार/सह कर्जदार/गारंटर उक्त राशि भुगतान करने में विफल रहे है,अतः कर्जदार/ सह

कर्जदार / गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4)के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 मार्च, 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार / सह कर्जदार / गारंटर और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है

कि उक्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर 09.03.2020 के अनुसार रु. 12,10,50,535.60/- और उस पर ब्याज की राशि ,डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभृति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा

(8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण संपत्ति के सभी भाग और अंश जिसमें फ्लैट नं. जी-2. भतल. जीवन अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग प्रॉपर्टी

नं. 16ए, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025 दिनांकः 24.03.2023 अधिकृत अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली \infty इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

246, आर्यपुरी टाउन हॉल रोड, मुजफ्फरनगर -251001

डीसीबी बैंक लिमिटेड

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1)) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के साथ पढ़ते हुए अनुकोद १३(१२) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज , वसुली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 22.03.2023 ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज बैंक , को देव राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चीर्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भगतान की तारीख , अगर कोई हो , की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज , शुल्क

आदि , भगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

東0 स0	ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस क अनुसार बकाया राशि
041004/123/00/3g 5-410/2046/2046	नंदिकशोर पुत्र श्री राघेश्याम, निवासी— 270, पुरानी अकबरी, पुलिस चौकी के पास, मुजफ्फरनगर, यूपी—251002 (बाद में ''ऋणकर्ता'' के रूप में संदर्भित) और श्री राघेश्याम, पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन लाल, (गारंटर) निवासी— 270,	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल एक आवासीय मकान भूमि और निर्मित मकान से मिलकर स्थित मकान नंबर—270, पुरानी अकबरी, पुलिस चौकी के पास, मुजफ्फरनगर, यूपी—251002, क्षेत्रफल—38.87 वर्ग मीटर, श्री नंद किशोर पुत्र श्री राघेश्याम के नाम, सीमायें:— उत्तर: एक ही मालिक की संपत्ति का शेष भाग, दक्षिण: रास्ता फिर अंगूरी देवी का मकान, पूर्व: सीसी रोड 5.5 फीट चौडा, पश्चिम:	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 3,71,603.00 दिनांक 26.05.2022 तक + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	22.03.2023	रू 3,94,686.00 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क दिनांक 22.03.2023

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल. जीएमटीटी बिल्डिंग डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (उ.प्र.)-201301

समाचारपत्र प्रकाशन के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमीण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

एतदृद्वारा एक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) ने बैंक से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन के प्रतिभूगतान तथा ब्याज व भुगतान में चुक कर दी है तथा इसीलिये उक्त सुविधायें निम्नवर्णित प्रत्येक खाता के समक्ष अनिष्पादनीय परिसंपत्तियां बन चुकी हैं। इस संदर्भ में पंजीकृत डाक द्वारा ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय परिसंपित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना निर्गत की गयी थी। हालांकि, सूचना/यें सूचना—प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुये बिना ही वापस आ गयी थीं तथा इसीलिये प्राधिकत अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि ऋणकर्ता(गण) / गारंटर(गण) सूचना लेने से बच रहे हैं, अतः एतदद्वारा उन्हें उनको भेजी गयी. परंत वापस लौट आयीं सचना के बारे में इस सार्वजनिक सचना के माध्यम से सचित किया जाता है।

	,	~		
शाखा एवं	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	एनपीए	मांग सूचना	मांग सूचना
ऋणकर्ता / गारंटर का नाम		की तिथि	की तिथि	के अनुसार राशि
शाखा : जयपुर	संपत्ति भूखंड सं. 65 के समस्त वह भाग	10-01-2022	27-12-2022	₹. 4,52,434.91 / −
1. रामकिशोर पुत्र गोविंद राम, निवासी : 65,	तथा अंश जिनका अधिमापन 100 वर्ग गर्	ज है जो स्कीम	। प्रताप एन्क्लेव—।।,	दिनांक 27—12—2022
बिजासन नगर, फर्स्ट बक्शावाला, संगानेर,	बक्सावाला, संगानेर, जयपुर, राजस्थान में रि	स्थित तथा निम्न	ानुसार परिसीमित हैः	के अनुसार साथ में
जयपुर, राजस्थान, 302029, अन्य पता यहां पर	परिसीमायेंः पूर्व— सार्वजनिक सड़क, पश्चि	म– अन्य का भ्	ा्खंड, उत्तर– भूखंड	27-12-2022 से
भी : 149, रघुनाथपुरी 2, संगानेर, थाना, जयपुर	सं. ६६, दक्षिण— भूखंड सं. ६४, संपत्ति ज	गे है वह रामकि	ज्शोर पुत्र श्री गोविंद	संविदाकृत दर पर
एयरपोर्ट, संगानेर, राजस्थान-302011, 2. प्रेम		वामित्व विलेखों	के जमा का ज्ञापनः	ब्याज एवं अन्य शुल्क
देवी पत्नी रामकिशोर, निवासी : 65, बिजासन	दिनांकितः 23—10—2017			

नगर, फर्स्ट बक्शावाला, संगानेर, जयपुर, राजस्थान, 302029, अन्य पता **यहां पर भी :** 149, रघुनाथपुरी 2, संगानेर, थाना, जयपुर एयरपोर्ट, संगानेर, राजस्थान-302011, (खाता सं.: 233879700000026) शाखा : बूदी आवासीय संपत्ति पट्टा सं. 08-10-2021 28-12-2022 **ড**. 10.69.234 ∕ −

राजस्थान–323021, अन्य पता **यहां पर भी** : 112, राजपूतों का तलेरा, जनपद बूंदी (खसरा सं. 386 का भाग) में स्थित तथा मोहल्ला, छपावदा तहसील, बुंदी, राजस्थान—323021, **२. ममता**। निम्नानुसार परिसीमित हैः परिसीमायेः पूर्व— पप्प का मकान. **बाई** पत्नी शिवराज, निवासी : छपावदा बूंदी बाजार, पश्चिम– आम रास्ता, उत्तर– प्रकाश का मकान. दक्षिण– राजस्थान–323021, अन्य पता **यहां पर भी** : 112, राजपूतों का नंदिकशोर का मकान। संपत्ति जो है वह शिवराज पुत्र बंशीलाल मोहल्ला, छपावदा तहसील, बूंदी, राजस्थान-323021, (खाता सं.: 2224210170000032)

से संबंधित है। बंधक के सुजनार्थ स्वामित्व विलेखों के जमा का ज्ञापनः दिनांकितः 19-12-2018

दिनांक 27-12-2022 के अनुसार साथ में 27-12-2022 से संविदाकृत दर पर ब्याज एवं अन्य शुल्क

उपरोक्त ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को सलाह है कि सूचना में अंकित राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भूगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के उपरांत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाहियां की जायेंगी। इतना ही नहीं, ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतदद्वारा हमारी पूर्व सहमित लिये बिना, उपरोक्त वर्णित उक्त किसी भी प्रतिभृत परिसंपत्ति का किसी भी प्रकार, चाहे जैसा भी प्रकार हो, लेन–देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह सूचना, विषयगत अधिनियम तथा / अथवा किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत हमारे पास उपलब्ध किसी अन्याधिकार के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गयी है।

दिनांक : 24-03-2023 स्थान : जयपुर एवं बुंदी प्राधिकृत अधिकारी

उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक द्वितीय तल. पार्विक प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति विल्डंग डी-७, सेक्टर ३, नोएडा (उ.प्र.) 201301

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत पेपर प्रकाशन के माध्यम से मांग सूचना

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार(रों) ने बैंक से उनके द्वारा ग्रहण की गयी साख सुविधाओं के मुलधन तथा ब्याज के भुगतान मे चुक की है और कथित सुविधाएँ प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित नॉन पर्फार्मिंग आस्तियों में परिवर्तित हो गयी हैं। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचनाओं पंजीकृत डाक द्वारा कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयीं। किन्तु सुचनाएँ अनसर्व्ड वापस कर दी गयीं और अधिकृत प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कर्जदार/जमानती नोटिस की सर्विस से बच रहे हैं अतः इन्हें इसके विषय में सार्वजनिक सचना द्वारा सचित किया जा रहा है।

	3		10 000	
शाखा तथा कर्जदार/जमानती का नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण	एनपीए की	मांग सूचना	मांग सूचना के
		तिथि	की तिथि	अनुसार राशि
शाखा : दिल्ली	निर्मित संपत्ति नंबर डब्ल्यूजेड-622-डी	11-09-2022	24-01-2023	24.01.2023 तक
1. <b>इंडो ग्लोबल इम्पेक्स</b> अपने प्रोपराइटर चंदीप सिंह	के हिस्से में छत के अधिकार के बिना, प	हली मंजिल का	समस्त भाग, पुराना	रु. 25,67,714/−
कोचर, ईडब्ल्युएस जीएफ05, ला लैगुने, गोल्फ कोर्स	नंबर सी-119 और सी-120, क्षेत्रफल 110	0.5 वर्ग गज, 2	31-1/2 वर्ग गज के	तथा 25.01.2023
रोड, सेक्टर-54, गुड़गांव, हरियाणा- 122011 के	कुल क्षेत्रफल में से, खसरा संख्या 568/2 व	न्ना हिस्सा, गाँव <sup>1</sup>	तिहाड़, कॉलोनी शिव	से अनुबन्ध दर पर
माध्यम से। इसके अलावाः एफ-1201ए, साउथ ब्लॉक	नगर विस्तार, जेल रोड, नई दिल्ली में स्थि	थत, सीमाएंः पूर	र्यः जेल रोड, पश्चिमः	ब्याज एवं अन्य
गोल्फ कोर्स रोड, ला लैगुने अपार्टमेंट, गुड़गांव,	सर्विस लेन, उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः जीएत	त / 13 की संपर्ि	ते। संपत्ति श्री चंददीप	प्रभार
सेक्टर-54, हरियाणा-122011। इसके अलावाः 174,	सिंह कोचर वाया गुरबचन सिंह कोचर की	है। बंधक के नि	ार्माण के लिए शीर्षक	
पहली मंजिल गली अब्दुल हकीम, फाटक हबश खान	विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांकः 20-	10-2021		

तिलक बाजार, खारी बावली, उत्तरी दिल्ली -110006. 2. चनदीप सिंह कोचर वाया गुरबचन सिंह कोचर ईडब्ल्यूएस जीएफ05, ला, लैगने, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुड़गांव, हरियाणा-122011, इसके अलावाः एफ-1201ए. साउथ ब्लॉक गोल्फ कोर्स रोड. ला लगने अपार्टमेंट. गडगांव. सेक्टर-54. हरियाणा-122011 3. **नाजनीन कौर** सिंह पत्नी चंददीप सिंह कोचर एफ-1201ए, साउथ ब्लॉक गोल्फ कोर्स रोड, ला लगुने अपार्टमेंट, गुड़गांव, सेक्टर-54, हरियाणा-122011

3. **नाजनीन कौर सिंह** पत्नी चंददीप सिंह कोचर एफ-1201ए, साउथ ब्लॉक गोल्फ कोर्स रोड, ला लगुने अपार्टमेंट, गुड़गांव, सेक्टर-54, हरियाणा-122011

1. **जेआरवी फूड्स एंड नट्स**, इसके प्रोप्राइटर चंददीप सिंह कोचर के माध्यम से, ईडब्ल्युएस जीएफ05, ला, लैगुने, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुड़गांव, हरियाणा-122011 इसके अलावाः एफ-1201ए, साउथ ब्लॉक गोल्फ कोर्स रोड, ला लैगुने अपार्टमेंट, गुड़गांव , सेक्टर-54, हरियाणा-122011। इसके अलावाः 174. पहली मंजिल गली अब्दल हकीम, फाटक हबाश खान तिलक बाजार, खारी बावली, उत्तरी दिल्ली- 110006

2. चंदीप सिंह कोचर वाया गुरबचन सिंह कोचर ईडब्ल्यूएस

जीएफ05, ला लैगने, गोल्फकोर्स रोड, सेक्टर- 54, गडगांव,

हरियाणा 122011. साथ ही यहां: एफ-1201ए, साउथ ब्लॉक

(खाता संख्या 2347230050000003)

निर्मित संपत्ति नंबर डब्ल्यूजेड- 11-09-2022 24-01-2023 23.01.2023 तक 622-डी के हिस्से में छत के अधिकार के बिना, पहली मंजिल का समस्त 1,02,51,190.62/-भाग, पुराना नंबर सी-119 और सी-120, क्षेत्रफल 110.5 वर्ग गज, तथा 24.01.2023 231-1/2 वर्ग के कुल क्षेत्रफल में से। हाँ। खसरा संख्या 568/2 का से अनुबन्ध दर पर हिस्सा गाँव तिहाड़ के क्षेत्र में स्थित, कॉलोनी शिव नगर विस्तार, जेल रोड, नई दिल्ली में स्थित, सीमाएं निम्नानुसार है: पूर्व: जेल रोड, पश्चिम: सर्विस लेन, उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः जीएल/13 की संपत्ति। संपत्ति श्री चंददीप सिंह कोचर वाया गुरबचन सिंह कोचर की है। बंधक के निर्माण के लिए शीर्षक विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांक:20-10-2021

गोल्फ कोर्स रोड, ला लगुने अपार्टमेंट, गुड़गांव, सेक्टर-54, हरियाणा-122011

संपत्ति फ्रीहोल्ड आवासीय | 03-01-2022 | 28-12-2022 शाखाः फरीदाबाद 1. **मुंतियाज खान** पुत्र रामजानी खान 1362, फौजी की चक्की के पास, भूखंड संख्या 103 का समस्त भाग, माप 150 वर्ग गज, खसरा नंबर नगला एन्क्लेव पार्ट 2, फरीदाबाद सेक्टर-22, हरियाणा-121005। 9/1/2,12,19,20 और 10/1,10,11/1,11/6,16/1,15 में, गांव 2. **मैसर्स फैब्रिकेशन** अपने मालिक मुंतियाज खान के माध्यम से प्लॉट नंबर 51, सेक्टर -23, अपोजिट पंजाब रोलिंग मिल, संजय कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा। 3. मुवीना पत्नी मुंतियाज खान 1362,

नंगला, जिला गुजरान, फरीदाबाद में स्थित, जो निम्नानुसार घिरा हुआ है: सीमाएँ: पूर्व: सड़क 22 फीट चौड़ी, पश्चिम: सड़क 15 ब्याज एवं अन्य प्रभार फीट चौड़ी, उत्तरः सड़क 15 फीट चौड़ी, दक्षिणः प्लॉट नं. 104. संपत्ति मुवीना पत्नी मुंतियाज खान की है। बंधक के निर्माण के लिए शीर्षक विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांकः 28-05-2018

04.02.2023 तक रु. विक्रेता की भूमि, पश्चिमः अराजी मुकिरान, उत्तरः सड़क 12 फीट चौड़ी, दक्षिणः अराजी चमन और गुलजार। संपत्ति अब्दुल सलमान पुत्र अब्दल समद की है। बंधक के निर्माण के लिए शीर्षक विलेख जमा करने का ज्ञापन दिनांकः 26.08.2019

उपरोक्त कर्जदार(रों)/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें, इसमें विफल रहने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस की तिथि के 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को हमारी पूर्व सहमति के बिना, ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रतिभूत संपत्ति में से किसी भी तरीके से लेन-देन करने से निषिद्ध किया जाता है। यह कथित अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के तहत हमारे लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना है।

अधिकृत प्राधिकारी तिथि : 24.03.2023 स्थान : दिल्ली एवं अलीगढ

www.readwhere.com

| रु. 500,000/ निविदा कागजात मुल्य (अप्रतिदेय) : रु. 2500/-

# **Tender Notice**

Sealed tenders on prescribed format are invited through registered contractors of of Balance work Administrative block G.F. Rs. 55,37,600/= 2. Construction of 1st floor class room hall Sci. building Rs. 39.43.400/= 3. Renovation of Sardar Patel statue work Rs. 6,07,600/= 4. Construction of Staircase, mumty & bathroom G. F. Rs. 17,24,500/= up to 03.04.2023 at 03 P.M.

each B.O.Q. on Bank draft of Rs. 2500/= through the undersign office during office hours between 27.03.2023 to 02.04.2023.

stipulated. Tender will be opened on 05.04.2023 at 12.30 PM.

Secretary / Principal

(2) के अनुसरण में) असीमित कंपनी को शेयरों या प्रत्याभृति द्वारा सीमित कंपनी में संपरिवर्तन करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, 2013 की धारा 18 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का नियम 37

परिवर्तित कर सके।

कार्यालय में भी भेजी जाएगी: 29, दूसरी मंजिल, शिवाजी मार्ग आवेदक के लिए और आवेदक निमित्त की ओर

केनरा बैंक आवेदक राहुल सिंह प्रतिवादी

टॉप फ्लोर, पांडव नगर दिल्ली 110092 और: Religious यात्रा पार्टनर के रूप में नामित ए-17 गणेश नगर कॉम्प्लेक्स पांडव नगर प्रतिवादी 1 (2) श्रीमती निशा पत्नी राहल, एस-60 टॉप फ्लोर, पांडव नगर, दिल्ली-110092 और

रुपये 21,78,586/- (रु. इक्कीस लाख अट्टहत्तर हजार पाँच सौ छियासी मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 17-07-2023 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय रजिस्ट्रार के समक्षे उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की

011-23748473 ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे. वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी

मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (ci) सभी अधिवक्ता / पात्रगण "सिस्को वेबेक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड

> 1. **सलमान पत्र अब्दल सलमान**, मकान नंबर 240 एडीए शाहजमल, रोरावर, कोईल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202001 2. **सबा पत्नी सलमान**. मकान नंबर 240 एडीए शाहजमल. रोरावर, कोइल, अलीगढ, उत्तर प्रदेश- 202001

3. अब्दुल सलमान पुत्र अब्दुल समद, मकान नंबर 240 एडीए

शाहजमल, रोरावर, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001

फौजी की चक्की के पास, नगला एन्क्लेव पार्ट 2, फरीदाबाद

सेक्टर-22, हरियाणा-121005

(खाता संख्या 220480600000003)

(खाता संख्या 2269210080000100)

खसरा नं.-140, क्षेत्रफल 04-12-2022 10-02-2023 60.00 वर्ग गज का समस्त भाग, आवासीय संपत्ति, रोरावर, तहसील-कोईल, जिला-अलीगढ़ में स्थित, जो इस प्रकार घिरी है: सीमाएँ: पूर्व:

4,80,843.31/-तथा 05.02.2023 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं अन्य प्रभार

**Keynote Financial Services Limited** 

Mumbai – 400 028

Place: Mumbai

Tel: +91 22 6826 6000

E-mail: mbd@keynoteindia.net

Website: www.keynoteindia.net

Contact Person: Sunu Thomas

50,89,120 57,62,98,810

1,615

33.64.739 57.20.05.630

SHARES, INVESTORS ARE FURTHER ADVISED TO NOTE THAT THOUGH THESE EQUITY SHARES MAY GET CREDITED TO THEIR RESPECTIVE DEPOSITORY ACCOUNTS. THEY SHOULD TRADE IN SUCH EQUITY SHARES ONLY AFTER ASCERTAINING THAT TRADING APPROVAL HAS BEEN ISSUED AND NOTIFIED BY BSE. THIS INFORMATION WOULD ALSO BE POSTED ON THE

Website: www.amal.co.in Contact Person: Ankit Mankodi

SEBI Registration No.: INR000004058

Company Secretary & Compliance Officer